

## CIN-L70100MH1982PLC027198 www.indianinfotechandsoftwareltd.in

Date: 02nd March, 2024

To, BSE Ltd. Regd. Office: Floor - 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. Scrip Code - 509051

Sub: Intimation regarding compliance with Regulation 92 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations") and Regulation 30 read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Obligations") - Newspaper Advertisement

#### Ref: Reg. 47 of SEBI (LODR) Regulation, 2015:

Dear Sir/Madam,

The basis of allotment in compliance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulation, 2018 was finalized on Friday 23rd, February 2024. Further, the Board of Directors in their meeting held on Friday 23rd, February 2024 has approved allotment of **26,14,53,270** Equity Shares of the face value of Re. 1.00/- each of the Company for cash at a price of Rs. 1.60/- per share (including a premium of Re. 0.60/- per Equity Share).

In accordance with the SEBI (ICDR) Regulations and other applicable laws including the circulars issued by SEBI from time to time, we enclose copies of newspaper advertisements issued by the Company and published today i.e., Saturday, 02<sup>nd</sup> March, 2024 with respect to the basis of allotment in all editions of English national daily newspaper, "**Financial Express**", all editions of Hindi national daily newspaper, "**Jansatta**", and Mumbai newspaper, "**Lakshadeep**".

This is for your information and records and request you to upload the same on your website

For Indian Infotech & Software Limited

Mushahid Khan Company Secretary & Compliance Officer FINANCIAL EXPRESS

# JUMPS 5% FROM SEPTEMBER QUARTER

# Variable pay at Wipro more than 85% in Q3

SAMEER RANJAN BAKSHI Bengaluru, March 1

**AFTER ROLLING OUT** an average variable payout of 80% for two quarters, Indian IT major Wipro offered an average of more than 85% to its employees for the third quarter of the current fiscal, according to two sources in the company.

In the first and second quarters of this fiscal, the IT firm rolled out average of 80% and 81%, respectively. However, another source in Wipro FullStride Cloud business line, which accounts for over a third of company's revenue and has around 80,000 employees, said that the average variable pay for their business line in the September quarter was 100% and it has come to 89.74% in the December quarter.

Arecent mail from Wipro to employees stated that the variable payout will be linked to three factors – revenue (40%), gross margin (30%) and total contract value (30%). Questions mailed to Wipro didn't elicit any response till the time



■ Wipro offered 80% and 81% average variable pay in Q1 and Q2, respectively

of going to press.

To boost margins, the company had deferred its salary hikes to employees from the second to the third quarter. The IT company has recently given annual hikes in the range of 6-

8% to selective employees after deferring it by a few months. The hikes that the company rolled out was effective from December 1, 2023.

Wipro beat street estimates despite reporting a revenue of ₹22,205 crore, down by 1.4% quarter-on-quarter (q-o-q). Despite stiff challenges of weaker demand, seasonal furloughs and salary hikes to employees, the company's margins have been resilient, that fell to 16% in Q3, compared to 16.1% in Q2. Wipro expects the march quarter revenue from its IT services business segment to be in the range of -1.5% to 0.5% in constant currency terms.ForQ3,thecompanyhad earlier guided revenue to be in the range -3.5% to -1.5% in constant currency terms.

Rival IT major Infosys, which rolled out variable payouts of around 80% for two quarters, reduced its average variable pay to 73% for the third quarter of current fiscal. The IT major had dipped variable pay to 60% for the March quarter of FY23, citing global macro-economic headwinds.

current rail making capacity to 600,000 tonnes per annum, the investments are aimed at making the rail mill more efficient and most modern, the

firm said in a

statement.

**MEGA DEAL** 

■ The infra major will

₹5,700 cr

■ It will also provide

₹7,668.82 cr

range aerial surveillance.

Equipped with multiple fea-

tures and capable of remote

operations, it will augment IAF's

capabilities for monitoring spe-

cial zones of interest, designat-

ing and tracking adversaries

with optimal accuracy, L&T said

in a statement. The project is

indigenously built

close-in weapon

systems for

supply high power

radars to IAF for

The project envisages setting up of tandem mill, head hardening facility and increasing the length of rails to 120

The Sajjan Jindalmetre from preled steel firm will sent 108 metre. "The Italian steel invest another €143 million to modernise the site,

the firm said in a

statement

L&T signs ₹13k-cr IAF contracts

commitment to partner the Italian government's effort in the growth and economic development of the region,"

■ The firm also commissioned its

turnkey in nature and is to be

executed across multiple loca-

for deployment at various loca-

tions across India to protect vital

assets from all types of low fly-

ing, low signature aerial threats

including unmanned aerial

Meanwhile, CIWS is planned

first indigenously manufactured

electrolyser in Gujarat

tions, it added.

JSW Steel to restart Piombino plant in Italy JSW Group chairman Sajjan

"Following the mod-

ernising, Piombino Rail mill industry is undergoing a transforwill become the most modmative stage. JSW ern, technologically advanced Steel Italy's investand best in class rail mill in Europe. This project will safements to modguard the aspiration towards ernise the Piomthe development of Piombino bino steelworks as a steel hub and step up site reiterates our domestic production that will result in reduction of imports of steel products into Italy,"

Jindal said.

he added.

NON BANKING FINANCE COMPANY

vehicles, the company said.

Further, the company also said L&T Infrastructure Development Projects (L&T IDPL), a subsidiary of the company, has completed the sale of its entire stake in Interise Investment Managers (IIML). This was under a share purchase agreement dated November 3, 2023. Consequently, IIML has ceased to be a subsidiary of L&T IDPL and L&T.

Separately, L&T marked its foray into electrolyser manufacturing with the firm commissioning its first indigenously manufactured electrolyser at Hazira plant in Gujarat. With a rated power capacity of 1 MW (expandable to 2 MW), this electrolyser can produce 200 normal cubic meters per hour (Nm3/Hr) of hydrogen.

(With inputs from PTI)

Pranav Adani, MD and board director, Adani Enterprises

# Adani Group set to invest ₹75K cr in MP

**RAJESH KURUP** Mumbai, March 1

15,000 jobs.

**THE ADANI GROUP** will invest ₹75,000 crore in Madhya Pradesh across various sectors such as cement, roads, energy and natural resources, a move that would generate more than

The group has been on an investment spree across various states in the country, mostly to develop infrastructure across sectors.

The group will invest close to ₹30,000 crore, its biggest in the state, to ramp up its power generation capacity at the Mahan Energen plant in Singrauli.

The capacity would be hiked to 4,400 megawatts (MW) from the present 1,200 MW. Further, it will also invest close to ₹28,000 crore to set up 3,410 MW capacity of pumped storage projects.

# Hiring of freshers sees 12% decline in Feb

Overall jobs markets posted a dip of 8%

FE BUREAU, Bengaluru, March 1

HIRING OF FRESHERS saw a 12% decline in February 2024 as compared to the corresponding period last year, latest findings by talent platform foundit (formerly Monster APAC & ME) have revealed. However, there was a 24% increase in applications.

The tracker also showed that hiring activity across sectors saw an 8% year-on-year (y-o-y) dip, while increasing 3% sequentially, which is indicative of a positive momentum in employment opportunities.

Despite the overall drop, specific industries showcased noteworthy trends. Though its job share decreased from 23% to 17%, the technology sector, particularly IT-hardware & software, retained its dominance, according to the foundit Insights Tracker (fit).

While healthcare doubled its share from 5% to 10%, startups exhibited a significant decline in entry-level hiring, contributing only 3% of jobs as opposed to 14% in the previous year due to funding challenges and strategic adjustments in their hiring

**SLOW JOBS MARKET** ■ Startups exhibited a significant decline in entry-level Amid the dip in hiring activity, there was a 24% increase in applications

■ Job opportunities also recorded a 3% sequential rise, indicating positive momentum

23% to 17%

practices to adapt to market conditions.

Sekhar Garisa, CEO, foundit, said, "The positive momentum in certain sectors like manufacturing and energy is encouraging. However, freshers face a challenging landscape with increased competition and fewer opportunities.

This highlights the importance of equipping oneself with relevant skills and building strong profiles to stand out in this competitive environment."

Geographically, Delhi-NCR maintained its lead position with a 19% share of job postings, followed by Bangalore (13%) and Mumbai (10%). The demand for software, hardware and telecom roles remained high, although

hiring, contributing only 3% ofjobs ■ The technology sector's job share decreased from

showing a slight dip from 32%

in February 2023 to 27% in February 2024.

No: JDA/EE&TA to Dir.Engg.-1/2023-24/D-20

on Friday. JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTICE INVITING BID NIB No. : EE & TA to Dir.Engg.-1/34/2023-24 Cost of Nature

	acount femant		
JDA2324WLOB00724	674.00	Bridge	18.03.2024
JDA2324WLOB00732	1340.00	Road	20.03.2024
Other particulars of Procurement Portal www.eproc.rajasthan.g	website ww	w.sppp.raja	sthan.gov.in,
Raj. Samwad/C/2023-24/14082	Exec	utive Engineer 8	TA to Dir.Engg-I

#### ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED (A. Govt. of Assam Public Limited Company) TENDER NOTICE No. 24/1

E-Tender with a validity upto 180 days are hereby requested from reputed Original Manufactures (OM) for supply of EHV Grade Transformer Oil to IS 335:2018 (Type-I) in all Central Stores (Guwahati, Tezpur, Bongaigaon, Jorhat & Silchar) of APDCL. Interested Original Manufactures may view the detailed Tender Notice and specification by visiting APDCL website www.apdcl.org or www.assamtenders.gov.in

Description Date & Time Tender document publishing date 04.03.2024 15:00 hrs. Pre-Bid Meeting 11.03.2024 12:00 hrs. Bid Submission start date and time 15.03.2024 10:00 hrs. 28.03.2024 15:00 hrs. Bid Submission end date and time Technical Bid Opening Date & time | 30.03.2024 15:00 hrs. Sd/- Chief General Manager (PP&D), APDCL

Please pay your energy bill on time and help us to serve you better!

#### **EUROTAS INFRATSRUCTURE LIMITED -**IN LIQUIDATION U74900TG2008PTC060157

## E-AUCTION SALE NOTICE

The Liquidator is inviting prospective investors to acquire Eurotas Infrastructure Limited - In Liquidation ("EIL"/ "Company") as a going concern or the movable assets of the Company on a collective sale basis through e-auction process. EIL has an underconstruction cement manufacturing plant at Additional Sinnar Industrial Area, MIDC, Village - Musalgaon, Taluka - Sinnar, District - Nashik, Maharashtra and the key highlights of the Company are as follows:

1. 36.37 hectares of Sub-Leasehold Land Parcel in Additional Sinnar Industrial Area, MIDC, Musalgaon, Sinnar, Nashik, 2. Under Construction Cement Grinding Unit of 1.6 MMTPA

capacity (expandable upto 4.95 MMTPA) which is estimated to 80-85% completed. 3. Registered Office Premise (Rented) in New Delhi with few Office Equipment and Furniture & Fixtures

www.eauctions.co.in. Call at +91 88285 76197 or Email at cirp.eurotas@gmail.com

for more information.

E-Auction on March 28, 2024 from 2 PM to 3 PM at web portal of:

For Eurotas Infrastructure Limited - In Liquidation Huzefa Fakhri Sitabkhan, Liquidator IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115 Authorisation of Assignment valid till December 19, 2024 huzefa.sitabkhan@gmail.com, cirp.eurotas@gmail.com

Date: March 02, 2024 PlancManeab.epapr.in

Result of voting

Date: 01.03.2024 (Company Secretary & Compliance Officer) Place: Delhi

#### and Stars Microelectronics, a Thailand-based outsourced semiconductor assembly and

Forays into electrolyser

**ENGINEERING AND INFRA-**

**STRUCTURE** conglomerate

Larsen & Toubro (L&T) has won

a major contract from the min-

istry of defence to supply high

power radars (HPR) to the Indian

Air Force (IAF). The contract is

worth ₹5,700 crore, the min-

istry said in a statement. Addi-

tionally, it also signed the con-

tract for an earlier order worth

₹7,668.82 crore to supply

indgenously built close-in

weapon systems (CIWS) to IAF.

ued between ₹5,000-10,000

SAJJAN JINDAL-LED JSW

Steel has signed an agreement

with the Italian government

to restart the manufacturing

facility at Piombino, with the

Indian company intending to

invest another €143 million

to commence and relaunch

the steelworks site of Piom-

bino. Apart from doubling the

**CG** Power to

invest ₹7.6k cr

for chip plant

sourced

MURUGAPPA GROUP COM-

The agreement is intended

to modernise the site.

crore as "major".

**RAJESH KURUP** 

Mumbai, March 1

L&T classifies a contract val-

HPR is a static sensor for long

manufacturing

**RAJESH KURUP** 

Mumbai, March 1

Bids are invited from interested bidders for following works :-UBN No. Last Date Work (Lacs) of Work

Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

CIN: L70101DL2005GOI132162 HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED Reg. Office Address: (A Government of India Enterprise) Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan, Maulana हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड Azad Road New Delhi, 110001 Website: www.hpil.co.in Email: info@hpil.co.in Tel.: 011-23061915, 011-23061444

## NOTICE POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to and in compliance of Section 108, Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, ('the Act') read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, General Circular and other relevant circulars, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circular), Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India and in compliance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is seeking approval of Members through the Postal Ballot through remote e-voting (e-voting) process:

No	Particulars of Resolution	Resolution
1.	Approval for material related party transaction with Central Public Work Department (CPWD) for financial year 2024-25	Ordinary Resolution
2	Approval of Variation in Terms & Conditions of Preference Shares	Special Resolution

facility has been facilitated by M/s Central Depository Services (India) Limited The notice along with the Explanatory statement has been dispatched on Friday, 01 March, 2024, to those members whose e-mail id's are registered with their Depositories as on February 23, 2024('Cut-off date'). A person who is not member on cut-off dale shall treat this notice for information purposes only. The Company

regard & regulation 44 of SEBI LODR, 2015, the electronic copies of Postal Ballot

Notice ('Notice') has been sent to through electronic mode and remote e-voting

has engaged the services of M/s Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for purpose of providing remote e-voting facility to all its members. The summary of relevant dates are as under: Saturday, 2nd March, 2024 at 9.00 a.m. (IST) Commencement of e-voting Sunday, 31st March, 2024 at 5:00 p.m. (IST). End of remote e-voting Cut off date for e voting Friday, 23rd February, 2024

Tuesday, 2nd April, 2024

Shri Rahul Chaudhary (M-F12884, CoP 20341), Practicing Company Secretary, Delhi, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner. The resolution(s), if approved shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting, i.e Sunday, 31st March, 2024 at 5:00 p.m. (IST). The results of Postal Ballot along with Scrutinizer's report will be declared by the Company within stipulated time and will also be displayed on the website of the Company, Stock Exchanges. For any other queries/grievances, members may contact M/s Link Intime India Private Ltd , RTA of the Company on csg-unit@tcplindia.co.in or on info@hpil.co.in

If you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can writean email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk. evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33

For Hemisphere Properties India Limited

Lubna

INDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD.

**PANY** CG Power and Industrial Solutions has signed an agreement with two foreign Indian Infotech and Software Limited was incorporated on May 22, 1982 with the name of Indian Leasers Limited in accordance with the provision of Companies Act, entities to set up an outsemiconductor assembly and test facility and plans to invest ₹7,600 crore in India over the next five years. The two entities are Rene-

sas which is a leading semiconductor firm based in Japan test provider, CG Power and Industrial Solutions (CG) said in an exchange filing

1956. Subsequently the name of our Company was changed to Indian Infotech and Software Limited and the Registrar of Companies; Mumbai issued a fresh certificate of incorporation on July 20, 1998. Pursuant to the order of the Honorable Bombay High Court dated May 4, 2012 approving the Scheme of Arrangement, the Nikkietal Co. Limited and Lambodar Nirmit Limited was merged with Indian Infotech and Software Limited. Pursuant to completion of said merger, the Company has issued and allotted the equity shares to the shareholders of both the transferor companies, the securities of the company are listed on the BSE Ltd. (Stock Exchange) Registered Office: Office No. 110, 1st Floor, Golden Chamber Pre Co-Op Soc Ltd. New Link Road Andheri West Mumbai-400053, India :

INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated

January 15, 2024 (the "Letter of Offer' or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI').

Contact Person: Manish Kumar Badola, Managing Director, Tel. No.: 022-49601435 E-mail: indianinfotechsoftware@yahoo.com; Website: www.indianinfotechandsoftwareltd.in Corporate Identification Number: L70100MH1982PLC027198

OUR PROMOTERS: MAHAMAYA FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED, JAYANTI PRIME SOFTWARE ADVISORY PRIVATE LIMITED, GENEROSITY SHARE TRADING PRIVATE LIMITED, DHANVARSHA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

RIGHT ISSUE OF UPTO 26,14,53,270 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹1.60 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 0.60 PAISE PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹4,183.25 LAKH ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THIRTEEN (13) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY FIFTY (50) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS JANUARY 29, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 80 OF THIS LETTER OF OFFER. fully subscribed

# BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Tuesday, 6th February, 2024 and closed on Tuesday, 13th February, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Thursday, 8th February, 2024. Out of the total 15800 Applications for 357180036 Rights Equity Shares, 1829 Applications for 8169581 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer, The total numbers of valid applications were 13971 for 349010455 Rights Equity Shares, which was 120.26% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange on February 23, 2024, approved the allotment of 26,14,53,270 fully paid -up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for allotment.

The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	Number of Equity Shares Allotted - against REs (including ASBA applications) received	Number of Equity Shares Allotted - Against valid additional shares	Total Equity Shares Allotted
	Number	Number	Number
Eligible Equity Shareholders	71415408	124212787	195628195
Renouncees	6701536	59123539	65825075
Total	78116944	183336326	261453270

Category	Gross			Less: Rejections/Partial Amount			Valid		
	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)
Eligible Equity Shareholders	13434	196184230	313894768.00	113	625080	1000128.00	13321	195559150	312894640.00
Fraction	20	69045	110472.00	0	0	0.00	20	69045	110472.00
Renouncees	633	153390760	245425216.00	3	8500	13600.00	630	153382260	245411616.00
Not a eligible equity shareholders of the company	1713	7536001	12057601.60	1713	7536001	12057601.60	0	0	0.00
Total	15800	357180036	571488057.60	1829	8169581	13071329.60	13971	349010455	558416728.00

ntimations for Allotment, Refund / Rejections Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed March 01, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on February 23, 2024. The listing application was executed with BSE on 27th February, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on February 29, 2024. No physical shares were allotted in the Rights issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about 04th March, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on 28th February 2024. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI/" beginning on page 75 of the LOF. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 614 of the LOF.



SEBI Registration No.: INRO00001112

Investor grievance e-mail: support@purvashare.com https://www.purvashare.com/ Contact Person: Ms. Deepali Dhuri;

(IISL

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED Registered office: Office No. 110, 1st Floor, VINDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTB. Golden Chamber Pre Co-Op Soc. Ltd. New Link NON BANKING FINANCE COMPANY Road Andheri West Mumbai-400053, India Telephone: 022-49601435

> E-mail: indianinfotechsoftware@yahoo.com Website: www.indianinfotechandsoftwareltd.in Contact Person: Mr. Mushahid Ahmed Khan., Company Secretary & Compliance Officer

grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY. FOR INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED

Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All

Date: March 1, 2024 Place: Mumbai

DIN: 05016172 The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, the Company at www.indianinfotechandsoftwareltd.in , the Registrar at https://www.purvashare.com and Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 18 of the LOF.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements (including their credit) and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation § under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.

HYDERABAD

Manish Badola

**Managing Director** 

न्यूनतम- १९.७

जनसता

2 मार्च, 2024

# खबर कोना



कोलकाता में शुक्रवार को एक स्कूल के छात्रावास में आग लगने के बाद एक मां अपनी बेटी को सांत्वना देती हुई।

#### विद्यालय के छात्रावास की इमारत में आग लगी

कोलकाता, १ मार्च (भाषा)।

उत्तरी कोलकाता में एक विद्यालय के छात्रावास की इमारत में शुक्रवार को आग लग गई। पुलिस सूत्रों ने यहँ जानकारी दी। आग लगने से छात्रावास के दो कमरों को नुकसान हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोपहर के समय जब लोगों ने कमरों से आग की लपटें

निकलती देखीं तो दमकल विभाग की तीन गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि दमकलकर्मियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चला है।

### वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन

कोलकाता, १ मार्च, (जनसत्ता)।

बैंक आफ इंडिया, हावडा अंचल ने वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान का आयोजन किया। इसका उद्देश्य युवा वयस्कों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढावा देना था। अभियान 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 के बीच चलाया गया। इस वर्ष की थीम 'करें सही शुरुआतः बनें वित्तीय रूप से स्मार्ट' थी। यह हावडा अंचल के विभिन्न शाखाओं द्वारा माणिकपीर शाखा के सहयोग से इस्लामपुर माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें बैंक आफ इंडिया हावड़ा अंचल के उप आंचलिक प्रबंधक शुभेंदु दास के साथ-साथ माणिकपीर शाखा

प्रबंधक अनुराधा मन्ना और राजभाषा अधिकारी संजय कुमार सेन अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ मौजूद रहे। मौके पर प्रधान अध्यापक भी स्कूल प्रबंधन के स्टाफ सदस्यों के साथ उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम का

शुभारंभ करते हुए हावड़ा अंचल के उप आंचलिक प्रबंधक शुँभेंदु दास ने कहा कि छात्रों के लिए, इसका अधिक महत्व है क्योंकि यह उन्हें बैंक खाते, सुरक्षित लेनदेन, बजट, क्रेडिट प्रबंधन और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय उत्पादों को नेविगेट करने जैसे विषयों पर निर्देश देता है।

# तृणमूल ने उठाया मनरेगा की राशि जारी न करने का मुद्दा

# भाजपा ने मनरेगा राशि के संबंध में गलत सूचना फैलाने का लगाया आरोप

कोलकाता, १ मार्च (भाषा)।

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने केंद्र द्वारा कथित तौर पर मनरेगा की राज्य की बकाया राशि जारी न किए जाने पर सवाल उठाया।

टीएमसी ने हैशटैग-'आएहोतोबताकेजाओ' के साथ सोशल मीडिया अभियान भी चलाया है। यह अभियान केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कथित तौर पर रोकी गई राशि और अन्य मुद्दों के संदर्भ में है। तृणमूल नेता शांतनु सेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री फिर से बंगाल का दौरा शुरू कर रहे हैं। भाजपा ने 2019 में राज्य में 18 लोकसभा सीट जीती थीं, लेकिन उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य की राशि रोक दी। जिसमें मनरेगा तृणमूल नेता शांतनु सेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री फिर से बंगाल का दौरा शुरू कर रहे हैं। भाजपा ने 2019 में राज्य में 18 लोकसभा सीट जीती थीं, लेकिन उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य की राशि रोक दी। जिसमें मनरेगा बकाया सहित विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।

बकाया सहित विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। 18 सांसदों ने केंद्र से राज्य को बकाया राशि जारी न करने का अनुरोध किया।

उन्होंने यह भी कहा कि अब ममता बनर्जी की सरकार श्रमिकों की बकाया राशि जारी कर रही है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को लगभग 30 लाख मनरेगा श्रमिकों को मार्च 2022 से लंबित 2,700 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान देना शुरू किया था।

टीएमसी के आरोपों के जवाब में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने सत्तारूढ़ दल पर मनरेगा राशि के संबंध में कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा की राशि इसलिए रोकी गई है क्योंकि राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के तहत खर्च की गई राशि पर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है। यह टीएमसी सरकार का संगठित भ्रष्टाचार है। इसलिए वे आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करा पाए। पहले उन्हें पूर्व में मिली मनरेगा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने दें।

# 'मोदी मणिपुर जाने के लिए समय नहीं निकाल पाएँ लेकिन लक्षद्वीप चले गए'

सूर्यास्त- ०५:३१

कोलकाता, १ मार्च (भाषा)।

तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर जाने के लिए समय नहीं निकाल पाए, लेकिन 'स्नर्कलिंग' के लिए लक्षद्वीप और 'स्कूबा डाइविंग' गुजरात चले गए।

कि संदेशखाली की महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न के कारण समाज सुधारक राजा मोहन राय की आत्मा रो रही होगी। इस पर तीखी

प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टीएमसी ने दावा किया कि समाज सुधारक की आत्मा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर जैसे भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर हो रहे कथित अत्याचार के कारण रो रही है। टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने कहा कि प्रधानमंत्री स्नार्कलिंग के (समुद्र में गोता लगाने) के लिए लिए लक्षद्वीप तो चले गए, लेकिन मणिपुर जाने के लिए समय नहीं मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा है निकाल पाए। सेन ने कहा कि भाजपा महिला विरोधी पार्टी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है।



भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके परिपत्र सं. आरबीआई/ 2022–23/168 सीओ. सीईपीडी. पीआरएस सं. एस1233 / 13- 01-018/2022-23 दिनांक 23.01.2023 के माध्यम से बैंकों को लॉकर ग्राहकों के साथ 31.12.2023 तक संशोधित लॉकर समझौता निष्पादित करने की सलाह दी थी। हमने अपने लॉकर ग्राहकों को उपरोक्त आवश्यकता के संबंध में एसएमएस/मेल/पत्र के माध्यम से भी सुचित कर

इस संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने उन लॉकर ग्राहकों, जिन्होंने अब तक संशोधित लॉकर समझौते को निष्पादित नहीं किया है, से संशोधित लॉकर समझौते को बिना किसी और देरी के निष्पादित करने हेतु सहयोग चाहता है, ताकि बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का पालन कर सके।

दिनांक: 29.02.2024

उप महाप्रबंधक (परिचालन) केंद्रीय कार्यालय, मुम्बई

# कुणाल घोष की 'एक्स' पर पोस्ट के बाद तृणमूल में बवाल

तृणमूल कांग्रेस के नेता व प्रवक्ता कुणाल घोष के एक्स पर की गई एक पोस्ट के बाद सत्ताधारी दल में बवाल मच गया है। गुरुवार की रात पोस्ट करने के बाद शुक्रवार उन्होंने एक्स पर अपने बायो को बदलते हुए सिर्फ पत्रकार और समाजसेवक लिखा। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन बंद कर दिया, जिससे कोई उनसे संपर्क नहीं हो सका।

गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के साथ उनका विरोध जगजाहिर है। गुरुवार को सुदीप ने कोलकाता में

कोलकाता, १ मार्च (जनसत्ता)। एक जनसभा की, जिसमें कुणाल मौजूद नहीं थे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया 'नेता अयोग्य, ग्रुपबाज, लालची, निजी राजनीतिक फायदा लूटने के लिए मनमर्जी करता रहेगा और चुनाव के पहले दीदी, अभिषेक, तृणमूल के गुणगान करके कार्यकर्ताओं के सहारे चुनावी वैतरणी पार कर जाएंगे, ऐसा बारंबार नहीं हो सकता।'

> हालांकि उन्होने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने सीधे सुदीप पर वार किया है। माना जा रहा है कि इसके बाद दल में इस मुद्दे को लेकर उन्हें फटकार पड़ी।



करतब

नदिया में शुक्रवार को हुगली नदी में गोते लगाते बच्चे।

# किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है शाहजहां शेख का जीवन

कोलकाता, १ मार्च (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके में यौन उत्पीडन और जमीन हडपने के आरोपों को लेकर सुर्खियों में आए शाहजहां शेख का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

एक स्थानीय परिवहन कंपनी में हेल्पर (खलासी) की मामूली पृष्ठभूमि से शुरुआत के बाद वह इलाके का तथाकथित टाइगर बन गया। शेख का उदय राज्य में वाम मोर्चा सरकार के अंतिम चरण में शुरू हुआ। यात्री वाहन सेवाओं में हेल्पर के रूप में कछ वर्षों तक काम करने के बाद, वह मछली के कारोबार में आ गया। उत्तर 24 परगना जिले में उस वक्त तैनात एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसका

की। तेजी से व्यवसाय बढ़ने के बाद, वे संदेशखाली में इस व्यापार में शीर्ष पर पहुंच गए। शेख ने 2004 में झींगा कारोबार शुरू किया और उस समय तक उसने संदेशखाली में अपनी छवि राबिन हुड जैसी बना ली थी। पूर्व पुलिस अधिकारी ने संकेत दिया कि शेख की जड़ें बांग्लादेश से जुड़ी हैं और वह 1990 के दशक के अंत में कथित तौर पर सीमा पार कर पश्चिम बंगाल आया था। माना जाता है कि माकपा के एक स्थानीय विधायक के साथ उसकी निकटता से उसने इलाके के ईंट भट्टा उद्योग पर अपना दबदबा कायम कर लिया, लेकिन 2011 में तुणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद, शेख को अपना वर्चस्व बनाए रखने में परेशानी झेलनी एक मामा मछला पालन व्यवसाय स जुड़ा था - पड़ी। इसलिए, उसने 2013 में पाला बदल लिया।

और शाहजहां ने कुछ समय तक उसकी मदद

बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों को स्कूलों में ठहराया जा रहा

# पढ़ाई को लेकर अभिभावक चिंतित

कोलकाता, १ मार्च (जनसत्ता)।

केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से अभी तक लोकसभा चुनाव के बारे में अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन इसके पहले ही राज्य में 100 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों का आना शुरू हो गया है।

राज्य के सरकारी स्कूलों में सुरक्षा बलों के रहने का इंतजाम किया गया है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा परिषद का कहना है कि उन्हें इस बारे में किसी तरह की पूर्व सूचना नहीं दी गई। मालूम हो कि उत्तर कोलकाता में केंद्रीय सुरक्षा बलों के रहने के लिए बेथुन स्कूल का चुनाव किया गया है। बताया जाता है कि स्थानीय पुलिस थाने से स्कूल में इस बारे में नोटिस भेजा गया है। केंद्रीय सरक्षा बल के जवानों के रहने तक स्कूल के बच्चों की पढ़ाई

राज्य के सरकारी स्कूलों में सुरक्षा बलों के रहने का इंतजाम किया गया है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा परिषद का कहना है कि उन्हें इस बारे में किसी तरह की पूर्व सूचना नहीं दी गई।

का क्या होगा, इस बारे में अभिभावकों की ओर से चिंता व्यक्त की जा रही है। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस बारे में बाद में सुचित किया जाएगा।

सुत्रों से पता चला है कि राज्य के कई स्कूलों में इस तरह पुलिस थानों से स्कूलों में पत्र भेजे गए हैं। महानगर में इस सूची में जादवपुर के तीन स्कूल और उत्तरपाड़ा का एक स्कुल शामिल है। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रामानुज गांगुली ने कहा कि इस बारे में सुना तो है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। मार्च के पहले हफ्ते से ही अगर इस तरह सरकारी स्कूलों को लिया जाएगा, तब पढ़ाई को लेकर समस्या होगी। सुरक्षा बलों के रहने पर पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इस बारे में मेरे साथ किसी तरह का विमर्श नहीं हुआ है। मालूम हो कि राज्य में फिलहाल कुल मिलाकर 100 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान आ रहे हैं, इसमें पहले चरण में कोलकाता में सात कंपनियां आई हैं। दूसरे चरण में तीन कंपनियां आएंगी। गणतांत्रिक अधिकार रक्षा समिति (एपीडीआर) की ओर से स्कूलों में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को रखने का विरोध किया गया है। इस बारे में एक बयान जारी करके कहा गया है कि इससे लंबे समय के लिए स्कल-कालेज की पढ़ाई बाधित होगी।

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated January 15, 2024 (the "Letter of Offer' or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



INDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD. NON BANKING FINANCE COMPANY

# INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED

Indian Infotech and Software Limited was incorporated on May 22, 1982 with the name of Indian Leasers Limited in accordance with the provision of Companies Act 1956. Subsequently the name of our Company was changed to Indian Infotech and Software Limited and the Registrar of Companies; Mumbai issued a fresh certificate of incorporation on July 20, 1998. Pursuant to the order of the Honorable Bombay High Court dated May 4, 2012 approving the Scheme of Arrangement, the Nikkietal Co. Limited and Lambodar Nirmit Limited was merged with Indian Infotech and Software Limited. Pursuant to completion of said merger, the Company has issued and allotted the equity shares to the shareholders of both the transferor companies, the securities of the company are listed on the BSE Ltd. (Stock Exchange)

Registered Office: Office No. 110, 1st Floor, Golden Chamber Pre Co-Op Soc Ltd. New Link Road Andheri West Mumbai-400053, India; Contact Person: Manish Kumar Badola, Managing Director, Tel. No.: 022-49601435

E-mail: indianinfotechsoftware@vahoo.com: Website: www.indianinfotechandsoftwareltd.in Corporate Identification Number: L70100MH1982PLC027198

OUR PROMOTERS: MAHAMAYA FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED. JAYANTI PRIME SOFTWARE ADVISORY PRIVATE LIMITED. GENEROSITY SHARE TRADING PRIVATE LIMITED, DHANVARSHA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

RIGHT ISSUE OF UPTO 26,14,53,270 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹1.60 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 0.60 PAISE PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹4,183.25 LAKH ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THIRTEEN (13) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY FIFTY (50) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS JANUARY 29, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 80 OF THIS LETTER OF OFFER. \* fully subscribed

## BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Tuesday, 6th February, 2024 and closed on Tuesday, 13th February, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Thursday, 8th February, 2024. Out of the total 15800 Applications for 357180036 Rights Equity Shares, 1829 Applications for 8169581 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer, The total numbers of valid applications were 13971 for 349010455 Rights Equity Shares, which was 120.26% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange on February 23, 2024, approved the allotment of 26,14,53,270 fully paid -up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for allotment.

The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Number of Equity Shares Allotted - against REs (including ASBA applications) received	Number of Equity Shares Allotted - Against valid additional shares	Total Equity Shares Allotted
Number	Number	Number
71415408	124212787	195628195
6701536	59123539	65825075
78116944	183336326	261453270
	REs (including ASBA applications) received Number 71415408 6701536	REs (including ASBA applications) received         Against valid additional shares           Number         Number           71415408         124212787           6701536         59123539

Category Gross Less: Rejections/Partial Amount Valid Applications Shares Amount (₹) Applications Shares Amount (₹) Applications Shares Amount (₹) Eligible Equity Shareholders 13434 196184230 195559150 313894768.00 625080 1000128.00 312894640.00 69045 0 69045 Fraction 20 110472.00 0.00 20 110472.00 153390760 245425216.00 3 8500 13600.00 630 245411616.00 Renouncees 153382260 Not a eligible equity shareholders of 1713 1713 the company 7536001 12057601.60 7536001 12057601.60 357180036 571488057.60 1829 8169581 13071329.60 13971 349010455 558416728.00

ntimations for Allotment, Refund / Rejections Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed March 01, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on February 23, 2024. The listing application was executed with BSE on 27<sup>th</sup> February, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on February 29, 2024. No physical shares were allotted in the Rights issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about 04th March, 2024. In accordance with SEB circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on 28th February 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI/" beginning on page 75 of the LOF DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 614 of the LOF.



Purva Sharegistry (India) Private Ltd. CIN: U67120MH1993PTC074079 Unit no. 9, Shiv Shakti Ind. Estt. J. R. Boricha Marg, Lower Parel (E) Mumbai 400 011. Telephone: +91 22 4961 4132;

REGISTRAR TO THE ISSUE

Contact Person: Ms. Deepali Dhuri;

SEBI Registration No.: INRO00001112

Facsimile: +91 22 22 3570 0224 Investor grievance e-mail: support@purvashare.com https://www.purvashare.com/

IISL

INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED Registered office: Office No. 110, 1st Floor, VADIAN INFORCE & SOFTWARE LED. Golden Chamber Pre Co-Op Soc. Ltd. New Link NON BLANCK FRANKE CREENING Road Andheri West Mumbai-400053, India Telephone: 022-49601435

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Website: www.indianinfotechandsoftwareltd.in Contact Person: Mr. Mushahid Ahmed Khan. Company Secretary & Compliance Officer

E-mail: indianinfotechsoftware@yahoo.com

Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name

address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE

FOR INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED

Manish Badola

Date: March 1, 2024 Place: Mumbai

BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Managing Director DIN: 05016172

The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, the Company a www.indianinfotechandsoftwareltd.in , the Registrar at https://www.purvashare.com and Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 18 of the LOF.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws Accordingly, the Rights Entitlements (including their credit) and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation § under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.

5

### सब्जी मण्डी शाखा

भौतिक सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(1))

जबकि अघोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ बडौदा, का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्रीमती बबीता विश्नोई एवं श्री अनुज विश्नोई को दिनांक 03.08.2023 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 31,93,466.00 (रु. इकतीस लाख तिरान्वे हजार चार सौ छियासठ मात्र) दिनांक 22. 07.2023 तक ब्याज सहित और ब्याज, लीगल प्रभार एवं अन्य खर्चे इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभूगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 29.02.2024 को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो / आस्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ़ बड़ौदा, **के प्रभार वास्ते** रू 31,93,466.00 (रु. इकतीस लाख तिरान्ये हजार चार सौ छियासठ मात्र) दिनांक 22.07.2023 तक ब्याज सहित और ब्याज, लीगल प्रमार एवं अन्य खर्चे इत्यादि पूर्ण चुकौती की तिथि तक के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। MISC CRL नं. 173 / 2023 में सुश्री प्रीति अग्रवाल, सीसीएम, पूर्वी जिला, कडकड़ड्मा कोर्ट दिल्ली के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-02-2024 के अनुसार सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत कब्जा

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण निर्मित द्वितीय तल, छत स्तर की सीमा तक, बिना छत के अधिकार के, संपत्ति नं. डब्ल्यूए-71 का हिस्सा (ओल्ड प्लॉट नं. 3 पर निर्मित), डब्ल्यू ए – ब्लॉक की आबादी, शकरपुर, खसरा नं. 177 में से, गांव शकरपुर खास के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा, दिल्ली—110092 में स्थित, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मी.

दिनांक : 29.02.2024, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

#### "IMPORTANT"

vynilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



(1/3 वैभव खंड, आम्रपाली ग्रीन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद फोन - 0120-2607659 ईमेल: iob1852@iob.in)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)] जबिक, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इण्डियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों

क्र. सं.	कर्जदार	क्र. सं.	कर्जदार
1.	श्री उदयराज सिंह पुत्र श्री बादाम सिंह और श्रीमती प्रीति सिंह पत्नी उदय राज सिंह निवासी आवासीय फ्लैट एसएफ 304, दूसरी मंजिल, फ्लॉट नंबर-17, 18, 19, दुर्गा एन्क्लेव, ग्राम-हरसौ, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद 201001 इसके अलावा मकान नंबर 1057के, चमरी दिल्ली रोड, गली नंबर-13, अर्जुन नगर, हापुड, उ.प्र245101 (कर्जदार और बंधककर्ता भी)		श्री सोमित कुमार पुत्र श्री इन्द्र पाल सिंह निवासी 144 गली नं. 6, फेज-7, शिव विहार, करावल नगर उत्तरी-पूर्वी दिल्ली-110094 साथ ही : पी-73 कैलाशपुरम, गोविन्दपुरम पीएस-कविनगर, जिल गाजियाबाद-201013
- 114			

(इसके पश्चात 'कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर' सन्दर्भित) से सूचना में उल्लिखित 31.10.2023 तक राशि रु. 16,05,437.18/- तथा वसूली की तिथि तक अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं रेस्ट्स, चार्ज आदि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भगतान करने को कहते हुए 24.11.2023 को मांग सूचना जारी की थी।

(1) कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहा और मात्र रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) का भुगतान किया है, अतः एतद्वारा कर्जदारों/जमानतियों और जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शिक्तयों के उपयोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 27 फरवरी, 2023 को कब्जा कर लिया है।

(2) कर्जदारों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है एवं सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार तिथि 31.10.2023 तक राशि रु. 16,05,437.18/- (रुपये बीस लाख बासट हजार पांच सौ पैंसट मात्र) तथा उपर्युक्त तिथि से यथासहमत अनुबन्ध दर पर उस पर ब्याज, मांग सूचना जारी होने के पश्चात भुगतान की तिथि तक पुनर्भुगतान, यदि कोई हो को घटाकर राशि के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रभार का विषय होगा। कब्जा लेने की तिथि तक रु. 16,40,987.18/- तथा भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं रेस्ट्स, प्रभार आदि बकाया है।

(3) प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। आवासीय फ्लैट एसएफ.304, प्लॉट नंबर 17,18,19, खसरा नंबर 76 और 74/2 की दूसरी मंजिल, दुर्गा एन्क्लेव, ग्राम हरसौ, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित, बिना छत के अधिकार के। माप 58.52 वर्ग मीटर।

पश्चिम- प्लॉट नंबर-20

अधिकृत प्राधिकारी

सीमाएं : पूर्व - सड़क 25 फीट चौड़ी

उत्तर- प्लॉट नंबर-16 दक्षिण-सड़क 20 फीट दिनांक: 27.02.2024 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थानः गाजियाबाद इंडियन ओवरसीज बैंक

सैम शाखा दिल्ली, प्रथम तल, 17स पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 011-40230168, मोबाइल नं. 9572326444

ई-मेल : armbdelhi@indianbank.co.in

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

🙇 इलाहाबाद

ALLAHABAD

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम,

2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सचित किया जाता है कि प्रतिभत क्रेडिटर इंडियन बैंक के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा इंडियन

बैंक, सैम लार्ज दिल्ली शाखा, प्रतिभत क्रेडिटर के प्राधिकत अधिकारी द्वारा किया गया था, की बिक्री

(1) मैसर्स शुभम फैशन, प्रोपराइटर श्री भगत सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, ई-351, ग्रेटर कैलाश पार्ट-Ⅱ, नई दिल्ली-110048

**Indian Bank** 

साथ ही आरजेड-9/18, गली नं. 11, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019

साथ ही : एफ-27, द्वितीय तल, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020

(2) श्री भगत सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह (गारंटर), ई-351, ग्रेटर कैलाश पार्ट-Ⅱ, नई दिल्ली-110048 साथ ही आरजेड-9/18, गली नं. 11, तगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019

साथ ही : एफ-27, द्वितीय तल, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020

(3) श्री प्रेम सिंह पत्र श्री गोकल चन्द (गारंटर), पता : 228, जालम मोहल्ला, तगलकाबाद, ग्राम जीतपर, नईदिल्ली-110044

से इण्डियन बैंक, सैम शाखा, दिल्ली, प्रतिभृत क्रेडिटर के बकाये 28.02.2022 तक रु. 1,09,92,567/- (रुपये एक करोड़ नौ लाख बानबे हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) की वस्ली के लिए 21.03.2024 को ''जो

है यही है", "जहाँ है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी।

ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के इरादे से रखी सम्पत्ति	का विशेष विवरण नीचे दिया गया है :
सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	आवासीय फ्लैट, तीसरी मंजिल, छत एवं ऊपर के अधिकार सहित (सामने से दाहिनी ओर) का सम्पूर्ण भाग, क्षेत्रफल 650 वर्ग फीट, सम्पत्ति सं.
	ई-351, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II, नई दिल्ली-110048 पर स्थित, श्री भगत सिंह के नाम पर
	विलेख के अनुसार सीमाएँ : पूर्व : प्लॉट नं. ई-349 पश्चिम : सम्पत्ति का भाग फिर प्लॉट नं. ई-353
	उत्तरः सर्विस लेन दक्षिणः रोड
सम्पत्ति पर ऋणभार	बैंक को ज्ञात नहीं
आरक्षित मूल्य	रु. 85,00,000/- (रुपये पिचासी लाख मात्र)
ईएमडी राशि	रु. 8,50,000/- (रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र)
न्यूनतम वृद्धि राशि	रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र)
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	21.03.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच
सम्पत्ति आईडी सं.	IDIB50341661030
गंतिस्तारमों को ऑपकारप गंतिस में भाग को के किए रागरे	É Tami dan nara mundul faluta at daniar (www.matagaammayaa.gam/ayatian/hama/ihani) dad an mung fan ara ê Lacadad

ांविदाकारों को ऑनलाइन संविदा में भाग लेने के लिए हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) देखने का परामर्श दिया जाता है। तकनीकी सहायता के लिए कपया एमएसटीसी के हेल्पडेस्क नं. 033-23400020/23400021/23400022 तथा सेवा प्रदाता के हेल्प डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्पलाइन नम्बरों पर सम्पर्क करें। एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण की स्थिति के लिए कृपया ibapiop@mstcecommerce.com पर तथा ईएमडी स्थिति के लिए कृपया ibapifin@mstcecommerce.com पर सम्पर्क करें।

सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के फोटोग्राफ एवं नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in तथा इस पोर्टल से सम्बिन्धित स्पष्टीकरण के लिए कृपया हेल्प लाइन नम्बर '18001025026' तथा '011-41106131'

संविदाकारों को वेबसाइट https://ibapi.in तथा www.mstcecommerce.com में सम्पत्ति की खोज करने का परामर्श दिया जाता है।

तिथि : 01.03.2024 स्थान : नई दिल्ली

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated January 24, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE").



# QUEST SOFTECH (INDIA) LIMITED

CIN: L72200MH2000PLC125359

Our Company was incorporated as a Private limited company under the Companies Act, 1956 in the name of 'Quest Softech (India) Private Limited' vide Certificate of Incorporation dated March 27, 2000 with the Registrar of Companies, Mumbai. Our Company was converted in to a public limited company and name of our Company was changed to 'Quest Softech (India) Limited' and a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Mumbai on March 18, 2008. The company got listed on BSE Limited dated July 05, 2013.

Registered Office: Cabin No 11, 7th Floor Times Square, Andheri Workflo, next to Sai Service, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069

Corporate Office: 303 3rd Floor Kanha Capital, R C Dutt Road, Vadodara - 390007, Gujarat, India Tel: 022-41495895 | Email: compliance@ampvolts.com; | Website: www.ampvolts.com

**Contact Person:** Mittal Kevin Shah, Company Secretary and Compliance Officer; PROMOTERS OF OUR COMPANY: AV AC DC RENEW PRIVATE LIMITED

ISSUE OF UP TO 1,60,00,000 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 30 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF RS. 20 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO RS. 48 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 8 (EIGHT) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 (FIVE) EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JANUARY 08, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 102 OF OUR LETTER OF OFFER.

#### CORRIGENDUM Kindly consider the below change in commencement of Trading date on BSE Limited:

The Rights Equity Shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE on or about Wednesday, March 06, 2024 instead of the Rights Equity Shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE on or about March 01, 2024, as stated in the news paper advertsiment for Basis of Allotment (Post Issue) dated February 28, 2024.

This is with reference to Letter of Offer dated January 24, 2024 filed with BSE Limited ("BSE") in relation to the Right Issue. All capitalized term used in the notice shall, unless the context otherwise requires, has the meaning prescribed in the Letter of Offer.

INVESTOR MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALISATION FORM PROPOSED LISTING

The Rights Issue offered through the Letter of Offer are proposed to be listed on the BSE Limited. Our Company has received an In-Principle Approval Letter dated December

20, 2023 from BSE Limited for using its name in this offer document for listing of our shares on the BSE Limited. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Draft Letter of Offer had not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of the issue is less than Rs. 50 Crores.

As required, a copy of the Letter of Offer has been submitted to SEBI. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text as provided in "Other Regulatory" and Statutory Disclosures" on page 95 of the Letter of Offer. **DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be

deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited **REGISTRAR TO THE ISSUE** 



Date: March 01, 2024

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Ind. Estate, J R Boricha Marg.

**Tel:** 022-4961 4132 / 3199 8810 | **E-mail ID:** support@purvashare.com Website: www.purvashare.com

**Designation of Contact Person:** Compliance Officer

**SEBI registration number:** INR000001112

Lower Parel (E), Mumbai, Maharashtra, 400011 Investor grievance e-mail: support@purvashare.com Contact person: Deepali Dhuri

**COMPANY SECATARY AND COMPLIANCE OFFICER** 

AV) AmpVolts

**QUEST SOFTECH (INDIA) LIMITED** Mittal Kevin Shah

Cabin No 11, 7th Floor, Times Square, Andheri Workflo, Next to Sai Service, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069

**Telephone:** 022-41495895 **Email:** compliance@ampvolts.com

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/post-issue related matters. All grievances relating to

Shares applied for, amount blocked ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS

the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity

OF THE COMPANY.

For QUEST SOFTECH (INDIA) LIMITED

Ms. Mittal Kevin Shah **Company Secretary and Compliance Officer** 

Place: Mumbai **Disclaimer:** Our Company has filed a Letter of Offer with Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of the company at www.ampvolts.com, website of the Stock Exchange where the Equity Shares are listed on BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 19 of the Letter of Offer.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Share jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or soid in the United States absent registration und US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

शाखा :- इंड एमएसएमई फरीदाबाद Indian Bank

**★** Extends किरायाकृत परिसरों में विद्यमान आपकी सभी घरेलू

वस्तुओं, निजी सामान का स्थानांतरण / निस्तारण 1. मैसर्स आर.एस. पैकेजिंग इंडस्ट्रीज (प्रोप. श्री भूपिंदर सहरावत), पता : हाउस नंबर एमसीएफ नंबर 8159, खसरा नंबर 11, किला नंबर 14, मौजा नगला गुजरान, नगला एन्क्लेव पार्ट–2, तहसील बङ्खल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा; पिन 131301, संपर्क : 8010596062

2. श्री भूपिंदर कुमार सहरावत (उधारकर्ता), पता : मकान नंबर एमसीएफ नंबर 8159, खसरा नंबर 11, किला नंबर 14, मौजा नगला गुजरान, नगला एन्क्लेव पार्ट-2, तहसील बडखल, जिला फरीदाबाद हरियाणा, अन्य पता यहां पर भी : ग्राम गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, पिन : 131301, संपर्क

3. श्रीमती पूनम देवी पत्नी भूपिंदर कुमार सहरावत, (बंधककर्ता और गारंटर), पता : मकान नंबर एमसीएफ नंबर 8159, खसरा नंबर 11, किला नंबर 14, मौजा नगला गुजरान, नगला एन्क्लेव पार्ट-2, तहसील बड़खल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, अन्य पता यहां पर भी : ग्राम गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, पिन : 131301, संपर्क : 8010596062

4. श्री भूपिंदर कुमार सहरावत, (उधारकर्ता), पता : ग्राम गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, पिन 131301, संपर्क : 8010596062

विषय : ऋण खाता :- मैसर्स आर.एस. पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक, इंड एमएसएमई फरीदाबाद

मैसर्स आर.एस. पैकेजिंग इंडस्ट्रीज (प्रोप. श्री भूपिंदर सहरावत) ने हमसे कुछ ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं। उक्त ऋण का पुनर्भुगतान कुछ संपत्तियों को गिरवी रखकर सुरक्षित किया गया था। आप बैंक को बकाया भुगतान करने में विफल रहे थे और इसलिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस दिनांक 17/06/2021 के माध्यम से आपको देय राशि का भूगतान करने के लिए कहा गया था। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि 60 दिनों के भीतर भूगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेकर अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा।

चुँकि आप भुगतान करने में विफल रहे थे, अतः बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद से संपर्क किया था, जिन्होंने सुरक्षित परिसंपत्ति का भौतिक कब्जा सुरक्षित करने और उसे बैंक के अधिकृत अधिकारी को सौंपने के लिए एक्सईएन एचएसएएमबी को नियुक्त किया था। तदनुसार, एक्सईएन एचएसएएमबी ने डीएम कब्जा आदेश दिनांक 05/6/2023 के अनुपालन में 05.09.2023 को सुरक्षित संपत्ति का भौतिक कब्जा सुरक्षित कर लिया था, जिसके बारे में नीचे दी गई अनुसूची में पूरा विवरण है। श्री रमेश चंद देसवाल (एक्सईएन, एचएसएएमबी, फरीदाबाद) के माध्यम से भौतिक कब्जा लेते समय, बैंक ने अनुसूची–उल्लेखित संपत्ति के अंदर पाई गई वस्तुओं की एक सूची ली थी, जो बैंक के पास गिरवी नहीं थी। इसकी एक प्रति एओ के पास संलग्न / उपलब्ध है।

हमने पहले ही आपसे पत्र दिनांक 05/09/2023, 16/09/2023 और अंतिम अनुस्मारक दिनांक 27 / 12 / 2023 के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति के परिसरों से अपनी निजी वस्तुओं और घरेलू सामान को स्थानांतरित करने / हटाने का अनुरोध किया है। हालाँकि, आप उक्त किसी भी अनुरोध पर ध्यान देने में विफल रहे हैं और तदनुसार, आपके संवेदनहीन और लापरवाह कृत्य से दुखी होकर, बैंक को आपके सभी घरेलू वस्तुओं और व्यक्तिगत सामान को सुरक्षित संपत्ति से स्थानांतरित करने / हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा था और उन्हें 20/2/2024 के अनुसार 2 दुकानों और छत पर, पता-एमसीएफ 86/1 का हिस्सा, होली फेथ स्कूल के पास, सुभाष चौक, नगला एन्क्लेव पार्ट 2, फरीदाबाद में किराए के परिसरों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

हम एतदद्वारा आपसे अनुरोध करते हैं कि इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से अपने जोखिम और लागत पर उपर्युक्त किरायाकृत परिसरों से उक्त वस्तुओं को शीघ्रातिशीघ्र और अधिकतम 1 महीने के भीतर हटा दें। एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि हम उपरोक्त वस्तुओं के लिये दुर्घटना, आग, चोरी, या किसी अन्य अप्रत्याशित और अलौकिक कारणवश हुयी किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बैंक इन वस्तुओं के लिए कोई बीमा कवरेज नहीं लेगा, क्योंकि इन पर बैंक से शुल्क नहीं लिया जाता है/बंधक नहीं लगाया जाता है। कृपया आगे ध्यान दें कि किराया, इत्यादि की लागतें आपके व्यय पर वहन की जाएंगी और हम आपसे

इसकी वसूली करेंगे। किराये की संपत्ति का पता : एमसीएफ 86/1 का हिस्सा बनने वाली 2 दुकानें और छत, होली फेथ स्कूल के पास, सुभाष चौक, नगला एन्क्लेव पार्ट-2, फरीदाबाद

> प्राधिकृत अधिकारी, मनीष मंगलानी, 7000751084 इंडियन बैंक

क्लस्टर कार्यालय, अमीन कॉम्प्लेक्स, अकबरी गेट, cluluck@jkbmail.com, वेबसाइट : www.jkbank.com

संदर्भ सं: जेकेबी / एडीवी / भदोही / 2023-

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सूचना जबिक, मैं नूरुल अमीन शाह, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन (सरफॉएसि) अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 08-11-2023 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता(ओं) नामतः

1. मैसर्स आर. के. वाई. आईईएनटी भट्टा, प्रोप. श्री राम केवल यादव पुत्र श्री बौड़म यादव निवासी कोम पल्हैया, भदोही, यूनिट पता : कोम फुल वारिया, भदोही।

2. श्री राम केवल यादव पुत्र श्री बौड़म यादव निवासी कोम पल्हैया, भदोही (उधारकर्ता) 3. श्रीमती मंजीरा देवी पत्नी श्री राम केवल यादव निवासी कोम तहसील एवं जिला भदोही

4. श्रीमती मंजीरा देवी पत्नी राम केवल यादव निवासी कोम तहसील और जिला भदोही

5. श्री रमा शंकर यादव पुत्र श्री राम केवल यादव निवासी कोम भदोही (गारंटर) को उधारकर्ता के खाता में 31–10–2023 के अनुसार शेष बकाया के रूप में रु 20,70,720.57/- (रुपये बीस लाख सत्तर हजार सात सौ बीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) की एक राशि का, राशि पर नियत भावी ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उक्त ऋणकर्ता उक्त राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वार

उक्त ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप मे अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित बंधक संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 28 फरवरी 2024 को अधिग्रहण कर लिया है। उपर्युक्त उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप मे सावधान किया जाता है कि उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार लेन-देन न करें तथा उक्त संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रू. 20,70,720.57/- (रुपये बीस लाख

राशि पर नियत भावी ब्याज तथा वहनकृत अथवा वहनयोग्य अन्य शुल्कों हेतु जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ अधिनियम की धारा (13) की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है

सत्तर हजार सात सौ बीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) की कुल राशि तथा 01-11-2023 र

किसी भी मान्यता सहित बंधक विलेख / नवीनतम विवरण

नं. 297 क्षेत्रफल 0.081 हेक्टे., ग्राम कोम, तालुका असनाव तहसील और जिला भदोही में स्थित, श्रीमती मंजीरा देवी पत्नी श्री राम केवल यादव निवासी कोम, तहसील एवं जिला भदोही के नाम पर है। ।।) संपत्ति का न्यायसंगत बंधक, जिसका विक्रय विलेख संख्या 750 दिनांक 29.09.2006 है (पंजीकृ दिनांक 04.05.2007 को) जो प्लाट नं. 296 / 459, क्षेत्रफल 0.055 हेक्टे. और प्लॉट नं. 280 क्षेत्रफल 06 बिस्वा और 04 धूर, जो ग्राम कोम तालुका असनाव तहसील और जिला भदोही में स्थित तथ

श्रीमती मंजीरा देवी पत्नी श्री राम केवल यादव निवासी कोम तहसील एवं जिला भदोही के नाम प

F +91 (0) 194 248 1928, CIN: L65110JK1938SGC000048 E info@jkbmail.com W www.jkbank.net

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated January 15, 2024 (the "Letter of Offer' or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI').



## INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED

Indian Infotech and Software Limited was incorporated on May 22, 1982 with the name of Indian Leasers Limited in accordance with the provision of Companies Act 1956. Subsequently the name of our Company was changed to Indian Infotech and Software Limited and the Registrar of Companies; Mumbai issued a fresh certificate of incorporation on July 20, 1998. Pursuant to the order of the Honorable Bombay High Court dated May 4, 2012 approving the Scheme of Arrangement, the Nikkietal Co. Limited and Lambodar Nirmit Limited was merged with Indian Infotech and Software Limited. Pursuant to completion of said merger, the Company has issued and allotted the equity shares to the shareholders of both the transferor companies, the securities of the company are listed on the BSE Ltd. (Stock Exchange) since April 19th, 1985.

Registered Office: Office No. 110, 1st Floor, Golden Chamber Pre Co-Op Soc Ltd. New Link Road Andheri West Mumbai-400053, India; Contact Person: Manish Kumar Badola, Managing Director, Tel. No.: 022-49601435

E-mail: indianinfotechsoftware@yahoo.com; Website: www.indianinfotechandsoftwareltd.in Corporate Identification Number: L70100MH1982PLC027198

OUR PROMOTERS: MAHAMAYA FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED, JAYANTI PRIME SOFTWARE ADVISORY PRIVATE LIMITED, GENEROSITY SHARE TRADING PRIVATE LIMITED, DHANVARSHA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

RIGHT ISSUE OF UPTO 26,14,53,270 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR

COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹1.60 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 0.60 PAISE PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹4,183.25 LAKH ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THIRTEEN (13) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY FIFTY (50) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS JANUARY 29, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 80 OF THIS LETTER OF OFFER. \* fully subscribed

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Tuesday, 6th February, 2024 and closed on Tuesday, 13th February, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Thursday, 8th February, 2024. Out of the total 15800 Applications for 357180036 Rights Equity Shares, 1829 Applications for 8169581 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer, The total numbers of valid applications were 13971 for 349010455 Rights Equity Shares, which was 120.26% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange on February 23, 2024, approved the allotment of 26,14,53,270 fully paid -up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for allotment.

The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	Number of Equity Shares Allotted - against REs (including ASBA applications) received	Number of Equity Shares Allotted - Against valid additional shares	Total Equity Shares Allotted
	Number	Number	Number
Eligible Equity Shareholders	71415408	124212787	195628195
Renouncees	6701536	59123539	65825075
Total	78116944	183336326	261453270

Information regarding total Applications received (including ASBA applications received)

Category	Gross			Less: Rejections/Partial Amount			Valid		
	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)
Eligible Equity Shareholders	13434	196184230	313894768.00	113	625080	1000128.00	13321	195559150	312894640.00
Fraction	20	69045	110472.00	0	0	0.00	20	69045	110472.00
Renouncees	633	153390760	245425216.00	3	8500	13600.00	630	153382260	245411616.00
Not a eligible equity shareholders of the company	1713	7536001	12057601.60	1713	7536001	12057601.60	0	0	0.00
Total	15800	357180036	571488057.60	1829	8169581	13071329.60	13971	349010455	558416728.00

Intimations for Allotment, Refund / Rejections Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed March 01, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on February 23, 2024. The listing application was executed with BSE on 27th February, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on February 29, 2024. No physical shares were allotted in the Rights issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about 04th March, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on 28th February 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI/" beginning on page 75 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 614 of the LOF. REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER



Purva Sharegistry (India) Private Ltd. CIN: U67120MH1993PTC074079 Unit no. 9, Shiv Shakti Ind. Estt. J. R. Boricha Marg, Lower Parel (E) Mumbai 400 011.

SEBI Registration No.: INRO00001112

Telephone: +91 22 4961 4132; Facsimile: +91 22 22 3570 0224 Investor grievance e-mail: support@purvashare.com https://www.purvashare.com/ Contact Person: Ms. Deepali Dhuri;

(IISL

INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED Registered office: Office No. 110, 1st Floor, WINDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD, Golden Chamber Pre Co-Op Soc. Ltd. New Link NON BANKING FINANCE COMPANY Road Andheri West Mumbai-400053. India Telephone: 022-49601435

Contact Person: Mr. Mushahid Ahmed Khan., Company Secretary & Compliance Officer Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All

E-mail: indianinfotechsoftware@yahoo.com

Website: www.indianinfotechandsoftwareltd.in

grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY. FOR INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED

> Manish Badola Managing Director

> > DIN: 05016172

Date: March 1, 2024 Place: Mumbai

The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, the Company at www.indianinfotechandsoftwareltd.in , the Registrar at https://www.purvashare.com and Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 18 of the LOF.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements (including their credit) and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation § under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.

Chandigarh www.readwhere.com



सब्जी मण्डी शाखा

भौतिक सूचना

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बढ़ौदा, का** प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्रीमती बबीता विश्नोई एवं श्री अनुज विश्नोई को दिनांक 03.08.2023 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 31,93,466.00 (रु. इकतीस लाख तिरान्वे हजार चार सौ छियासठ मात्र) दिनांक 22. 07.2023 तक ब्याज सहित और ब्याज, लीगल प्रभार एवं अन्य खर्चे इत्यादि उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभूगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 29.02.2024 को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा जनसाधारण को एतदहारा उक्त संपत्तियो / आस्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ़ बड़ीदा, के प्रभार वास्ते रू 31,93,466.00 (रु. इकतीस लाख तिरान्वे हजार चार सौ छियासठ मात्र) दिनांक 22.07.2023 तक ब्याज सहित और ब्याज, लीगल प्रभार एवं अन्य

खर्चे इत्यादि पूर्ण चुकौती की तिथि तक के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। MISC CRL नं. 173 / 2023 में सुश्री प्रीति अग्रवाल, सीसीएम, पूर्वी जिला, कडकडड्मा कोर्ट दिल्ली के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-02-2024 के अनुसार सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत कब्जा

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण निर्मित द्वितीय तल, छत स्तर की सीमा तक, बिना छत के अधिकार के, संपत्ति नं. डब्ल्यूए-71 का हिस्सा (ओल्ड प्लॉट नं. 3 पर निर्मित), डब्ल्यू ए – ब्लॉक की आबादी, शकरपुर, खसरा नं. 177 में से, गांव शकरपुर खास के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110092 में स्थित, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मी.

दिनांक : 29.02.2024, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

### 'IMPORTANT''

vyniist care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



(1/3 वैभव खंड, आम्रपाली ग्रीन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद फोन - 0120-2607659 ईमेल: iob1852@iob.in)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)] जबिक, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इण्डियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों

क्र. सं.	कर्जदार	क्र. सं.	कर्जदार
1.	श्री उदयराज सिंह पुत्र श्री बादाम सिंह और श्रीमती प्रीति सिंह पत्नी उदय राज सिंह निवासी आवासीय फ्लैट एसएफ 304, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर-17, 18, 19, दुर्गा एन्क्लेव, ग्राम-हरसौ, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद 201001 इसके अलावा मकान नंबर 1057के, चमरी दिल्ली रोड, गली नंबर-13, अर्जुन नगर, हापुड, उ.प्र245101 (कर्जदार और बंधककर्ता भी)		श्री सोमित कुमार पुत्र श्री इन्द्र पाल सिंह निवासी 144, गली नं. 6, फेज-7, शिव विहार, करावल नगर, उत्तरी-पूर्वी दिल्ली- 110094 साथ ही : पी-73, कैलाशपुरम, गोविन्दपुरम, पीएस-कविनगर, जिला गाजियाबाद-201013
इसव	के पश्चात 'कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर' सन्दर्भित) र	न सच	ना म डाल्लाखत 31.10.202

तक राशि रु. 16,05,437.18/- तथा वसूली की तिथि तक अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं रेस्ट्स, चार्ज आदि का कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भगतान करने को कहते हुए 24.11.2023 को मांग सूचना जारी की थी।

(1) कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहा और मात्र रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) का भुगतान किया है, अतः एतद्वारा कर्जदारों/जमानतियों और जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 27 फरवरी, 2023 को कब्जा कर लिया है।

(2) कर्जदारों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है एवं सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार तिथि 31.10.2023 तक राशि रु. 16,05,437.18/- (रुपये बीस लाख बासट हजार पांच सौ पैंसट मात्र) तथा उपर्युक्त तिथि से यथासहमत अनुबन्ध दर पर उस पर ब्याज, मांग सूचना जारी होने के पश्चात भुगतान की तिथि तक पुनर्भुगतान, यदि कोई हो को घटाकर राशि के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रभार का विषय होगा। कब्जा लेने की तिथि तक रु. 16,40,987.18/- तथा भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं रेस्ट्स, प्रभार आदि बकाया है।

(3) प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। आवासीय फ्लैट एसएफ.304, प्लॉट नंबर 17,18,19, खसरा नंबर 76 और 74/2 की दूसरी मंजिल, दुर्गा एन्क्लेव, ग्राम हरसौ, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित, बिना छत के अधिकार के।

सैम शाखा दिल्ली, प्रथम तल, 17स पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-40230168, मोबाइल नं. 9572326444

माप 58.52 वर्ग मीटर। सीमाएं

पूर्व - सड़क 25 फीट चौड़ी उत्तर- प्लॉट नंबर-16 दिनांक: 27.02.2024

दक्षिण-सड़क 20 फीट हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी इंडियन ओवरसीज बैंक

पश्चिम- प्लॉट नंबर-20

Indian Bank डाडयन बेक

ई-मेल : armbdelhi@indianbank.co.in परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

स्थानः गाजियाबाद

🙇 इलाहाबाद ALLAHABAD

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सुचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर इंडियन बैंक के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा इंडियन

बैंक, सैम लार्ज दिल्ली शाखा, प्रतिभृत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया था, की बिक्री (1) मैसर्स शभम फैशन, प्रोपराइटर श्री भगत सिंह पत्र श्री प्रेम सिंह, ई-351, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048

साथ ही आरजेड-9/18, गली नं. 11, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019

साथ ही : एफ-27, द्वितीय तल, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020

(2) श्री भगत सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह (गारंटर), ई-351, ग्रेटर कैलाश पार्ट-**Ⅱ**, नई दिल्ली-110048

साथ ही आरजेड-9/18, गली नं. 11, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019

साथ ही : एफ-27, द्वितीय तल, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 (3) श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री गोकल चन्द (गारंटर), पता : 228, जालम मोहल्ला, तुगलकाबाद, ग्राम जीतपुर, नईदिल्ली-110044

से इण्डियन बैंक, सैम शाखा, दिल्ली, प्रतिभृत क्रेडिटर के बकाये 28.02.2022 तक रु. 1,09,92,567/- (रुपये एक करोड़ नौ लाख बानबे हजार पांच सौ सडसठ मात्र) की वसली के लिए 21.03.2024 को ''जो

है यही है", "जहाँ है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के इरादे से रखी सम्पत्ति का विशेष विवरण नीचे दिया गया है :

आवासीय फ्लैट. तीसरी मंजिल. छत एवं ऊपर के अधिकार सहित (सामने से दाहिनी ओर) का सम्पूर्ण भाग, क्षेत्रफल 650 वर्ग फीट, सम्पत्ति सं. सम्पत्ति का विस्तृत विवरण ई-351, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II, नई दिल्ली-110048 पर स्थित, श्री भगत सिंह के नाम पर विलेख के अनुसार सीमाएँ : पूर्व : प्लॉट नं. ई-349 पश्चिम : सम्पत्ति का भाग फिर प्लॉट नं. ई-353 उत्तर : सर्विस लेन दक्षिण: रोड सम्पत्ति पर ऋणभार बैंक को जात नहीं आरक्षित मूल्य रु. 85,00,000/- (रुपये पिचासी लाख मात्र) ईएमडी राशि रु. 8,50,000/- (रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र) न्यूनतम वृद्धि राशि रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) ई-नीलामी की तिथि एवं समय 21.03.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच सम्पत्ति आईडी सं. IDIB50341661030

संविदाकारों को ऑनलाइन संविदा में भाग लेने के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) देखने का परामर्श दिया जाता है। तकनीर्क सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी के हेल्पडेस्क नं. 033–23400020/23400021/23400022 तथा सेवा प्रदाता के हेल्प डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्पलाइन नम्बरों पर सम्पर्क करें। एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण की स्थिति

के लिए कृपया ibapiop@mstcecommerce.com पर तथा ईएमडी स्थिति के लिए कृपया ibapifin@mstcecommerce.com पर सम्पर्क करें।

सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के फोटोग्राफ एवं नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in तथा इस पोर्टल से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के लिए कृपया हेल्प लाइन नम्बर '18001025026' तथा '011-41106131' पर सम्पर्क करें।

संविदाकारों को वेबसाइट https://ibapi.in तथा www.mstcecommerce.com में सम्पत्ति की खोज करने का परामर्श दिया जाता है। तिथि : 01.03.20<u>24 स्थान : नई दिल्ली</u>

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated January 24, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE").



# **QUEST SOFTECH (INDIA) LIMITED**

CIN: L72200MH2000PLC125359

Our Company was incorporated as a Private limited company under the Companies Act, 1956 in the name of 'Quest Softech (India) Private Limited' vide Certificate of Incorporation dated March 27, 2000 with the Registrar of Companies, Mumbai. Our Company was converted in to a public limited company and name of our Company was changed to 'Quest Softech (India) Limited' and a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Mumbai on March 18, 2008. The company got listed on BSE Limited dated July 05, 2013.

Registered Office: Cabin No 11, 7th Floor Times Square, Andheri Workflo, next to Sai Service, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069

Corporate Office: 303 3rd Floor Kanha Capital, R C Dutt Road, Vadodara - 390007, Gujarat, India Tel: 022-41495895 | Email: compliance@ampvolts.com: | Website: www.ampvolts.com

Contact Person: Mittal Kevin Shah, Company Secretary and Compliance Officer; PROMOTERS OF OUR COMPANY: AV AC DC RENEW PRIVATE LIMITED

ISSUE OF UP TO 1,60,00,000 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 30 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF RS. 20 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO RS. 48 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 8 (EIGHT) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 (FIVE) EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JANUARY 08, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE

"TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 102 OF OUR LETTER OF OFFER. CORRIGENDUM

Kindly consider the below change in commencement of Trading date on BSE Limited:

The Rights Equity Shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE on or about **Wednesday**, **March 06**, **2024** instead of the Rights Equity Shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE on or about March 01, 2024, as stated in the the news paper advertsiment for Basis of Allotment (Post Issue) dated February 28, 2024.

This is with reference to Letter of Offer dated January 24, 2024 filed with BSE Limited ("BSE") in relation to the Right Issue. All capitalized term used in the notice shall unless the context otherwise requires, has the meaning prescribed in the Letter of Offer.

INVESTOR MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALISATION FORM

PROPOSED LISTING The Rights Issue offered through the Letter of Offer are proposed to be listed on the BSE Limited. Our Company has received an In-Principle Approval Letter dated December

20, 2023 from BSE Limited for using its name in this offer document for listing of our shares on the BSE Limited. **DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI:** The Draft Letter of Offer had not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of the issue is less than Rs. 50 Crores. As required, a copy of the Letter of Offer has been submitted to SEBI. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text as provided in "Other Regulatory" and Statutory Disclosures" on page 95 of the Letter of Offer.

**DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED Address: Unit No. 9. Shiv Shakti Ind. Estate. J R Boricha Marg.

Lower Parel (E), Mumbai, Maharashtra, 400011 **Tel:** 022-4961 4132 / 3199 8810 | **E-mail ID:** support@purvashare.com Website: www.purvashare.com

**REGISTRAR TO THE ISSUE** 

Investor grievance e-mail: support@purvashare.com Contact person: Deepali Dhuri

**Designation of Contact Person:** Compliance Officer **SEBI registration number:** INR000001112

**COMPANY SECATARY AND COMPLIANCE OFFICER** 

AV) AmpVolts

Mittal Kevin Shah

**QUEST SOFTECH (INDIA) LIMITED** 

Cabin No 11, 7<sup>th</sup> Floor, Times Square, Andheri Workflo, Next to Sai Service, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069

**Telephone**: 022-41495895 **Email:** compliance@ampvolts.com

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For QUEST SOFTECH (INDIA) LIMITED

**Company Secretary and Compliance Officer** 

Ms. Mittal Kevin Shah

Disclaimer: Our Company has filed a Letter of Offer with Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of the company at www.ampvolts.com, website of the Stock Exchange where the Equity Shares are listed on BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk

and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 19 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Share jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent

registration und US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

lndian Bank

ASMINE

शाखा: = इंड एमएसएमई फरीदाबाद

किरायाकृत परिसरों में विद्यमान आपकी सभी घरेलू वस्तुओं, निजी सामान का स्थानांतरण / निस्तारण

1. मैसर्स आर.एस. पैकेजिंग इंडस्ट्रीज (प्रोप. श्री भूपिंदर सहरावत), पता : हाउस नंबर एमसीएफ नंब 8159, खसरा नंबर 11, किला नंबर 14, मौजा नगला गुजरान, नगला एन्क्लेव पार्ट-2, तहसील बड़खल जिला फरीदाबाद, हरियाणा; पिन 131301, संपर्क : 8010596062

2. श्री भूपिंदर कुमार सहरावत (उधारकर्ता), पता : मकान नंबर एमसीएफ नंबर 8159, खसरा नंबर 11, किला नंबर 14, मौजा नगला गुजरान, नगला एन्क्लेव पार्ट-2, तहसील बड़खल, जिला फरीदाबाद हरियाणा, अन्य पता यहां पर भी : ग्राम गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, पिन : 131301, संपर्क 8010596062

3. श्रीमती पुनम देवी पत्नी भूपिंदर कुमार सहरावत, (बंधककर्ता और गारंटर), पता : मकान नंब एमसीएफ नंबर 8159, खसरा नंबर 11, किला नंबर 14, मौजा नगला गुजरान, नगला एन्क्लेव पार्ट–2 तहसील बड़खल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, अन्य पता यहां पर भी : ग्राम गोहाना, जिला सोनीपत हरियाणा, पिन : 131301, संपर्क : 8010596062

4. श्री भूपिंदर कुमार सहरावत, (उधारकर्ता), पता : ग्राम गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, पिन 131301, संपर्क : 8010596062

विषय : ऋण खाता :- मैसर्स आर.एस. पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक, इंड एमएसएमई फरीदाबाव शाखा के साथ-संदर्भ

मैसर्स आर.एस. पैकेजिंग इंडस्ट्रीज (प्रोप. श्री भूपिंदर सहरावत) ने हमसे कुछ ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं। उक्त ऋण का पूनर्भूगतान कुछ संपत्तियों को गिरवी रखकर सूरक्षित किया गया था। आप बैंक के बकाया भुगतान करने में विफल रहे थे और इसलिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस दिनांक 17/06/2021 के माध्यम से आपको देय राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि 60 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक प्रतिभृतिर को अपने कब्जे में लेकर अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा।

चूँकि आप भुगतान करने में विफल रहे थे, अतः बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद से संपर्क किय था, जिन्होंने सुरक्षित परिसंपत्ति का भौतिक कब्जा सुरक्षित करने और उसे बैंक के अधिकृत अधिकार को सौंपने के लिए एक्सईएन एचएसएएमबी को नियुक्त किया था। तद्नुसार, एक्सईएन एचएसएएमब ने डीएम कब्जा आदेश दिनांक 05/6/2023 के अनुपालन में 05.09.2023 को सुरक्षित संपत्ति क भौतिक कब्जा सुरक्षित कर लिया था, जिसके बारे में नीचे दी गई अनुसूची में पूरा विवरण है। श्री रमेश चंद देसवाल (एक्सईएन, एचएसएएमबी, फरीदाबाद) के माध्यम से भौतिक कब्जा लेते समय, बैंक अनुसूची–उल्लेखित संपत्ति के अंदर पाई गई वस्तुओं की एक सूची ली थी, जो बैंक के पास गिरवी नहीं थी। इसकी एक प्रति एओ के पास संलग्न / उपलब्ध है।

हमने पहले ही आपसे पत्र दिनांक 05/09/2023, 16/09/2023 और अंतिम अनुस्मारक दिनांव 27 / 12 / 2023 के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति के परिसरों से अपनी निजी वस्तुओं और घरेल सामा को स्थानांतरित करने / हटाने का अनुरोध किया है। हालाँकि, आप उक्त किसी भी अनुरोध पर ध्या देने में विफल रहे हैं और तदनुसार, आपके संवेदनहीन और लापरवाह कृत्य से दुखी होकर, बैंक को आपके सभी घरेलू वस्तुओं और व्यक्तिगत सामान को सुरक्षित संपत्ति से स्थानांतरित करने / हटा के लिए बाध्य होना पड़ा था और उन्हें 20/2/2024 के अनुसार 2 दुकानों और छत पर पता-एमसीएफ 86/1 का हिस्सा, होली फेथ स्कूल के पास, सुभाष चौक, नगला एन्क्लेव पार्ट 2

फरीदाबाद में किराए के परिसरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। हम एतदृद्वारा आपसे अनुरोध करते हैं कि इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से अपने जोखिम और लाग पर उपर्युक्त किरायाकृत परिसरों से उक्त वस्तुओं को शीघ्रातिशीघ्र और अधिकतम 1 महीने के भीतर हटा दें। एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि हम उपरोक्त वस्तुओं के लिये दुर्घटना, आग, चोरी, या किसी अन्य अप्रत्याशित और अलौकिक कारणवश हुयी किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बैंक इन वस्तुओं के लिए कोई बीमा कवरेज नहीं लेगा, क्योंकि इन पर बैंक से शुल्क नहीं लिया जाता है/बंधक नहीं लगाया जाता है। कृपया आगे ध्यान दें कि किराया, इत्यादि की लागतें आपके व्यय पर वहन की जाएंगी और हम आपसे इसकी वसूली करेंगे।

किराये की संपत्ति का पता : एमसीएफ 86/1 का हिस्सा बनने वाली 2 दुकानें और छत, होली फेथ स्कूल के पास, सुभाष चौक, नगला एन्क्लेव पार्ट-2, फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, मनीष मंगलानी, 7000751084 इंडियन बैंक जम्मू एण्ड कश्मीर बैक लिमिटेड क्लस्टर कार्यालय, अमीन कॉम्प्लेक्स, अकबरी गेट,

> लखनऊ-03 इमेल : cluluck@jkbmail.com, वेबसाइट : www.jkbank.com

संदर्भ संः जेकेबी / एडीवी / भदोही / 2023-24 अधिग्रहण सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ

पठित सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सचना जबिक, मैं नुरुल अमीन शाह, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड व प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन (सरफॉएसि) अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 08-11-2023 निर्गत की थी,

1. मैसर्स आर. के. वाई. आईईएनटी भट्टा, प्रोप. श्री राम केवल यादव पुत्र श्री बौड़म यादव निवासी कोम पल्हैया, भदोही, यूनिट पता : कोम फुल वारिया, भदोही।

2. श्री राम केवल यादव पुत्र श्री बौड़म यादव निवासी कोम पल्हैया, भदोही (उधारकर्ता) 3. श्रीमती मंजीरा देवी पत्नी श्री राम केवल यादव निवासी कोम तहसील एवं जिला भदोही (बंधककर्ता)।

4. श्रीमती मंजीरा देवी पत्नी राम केवल यादव निवासी कोम तहसील और जिला भदोही

5. श्री रमा शंकर यादव पुत्र श्री राम केवल यादव निवासी कोम भदोही (गारंटर) को उधारकर्ता के खाता में 31-10-2023 के अनुसार शेष बकाया के रूप में र 20,70,720.57/- (रुपये बीस लाख सत्तर हजार सात सौ बीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) की एक राशि का, राशि पर नियत भावी ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूगतान करने को कहा गया था।

उक्त ऋणकर्ता उक्त राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वार उक्त ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि जम्म एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित बंधक संपत्ति का, उक्त नियमावली वे नियम 8 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शिक्तयो के प्रयोगांतर्गत, 28 फरवरी 2024 को अधिग्रहण कर लिया है।

उपर्युक्त उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार लेन-देन न करें तथा उक्त संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 20,70,720.57/- (रुपये बीस लाख सत्तर हजार सात सौ बीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) की कुल राशि तथा 01-11-2023 र राशि पर नियत भावी ब्याज तथा वहनकृत अथवा वहनयोग्य अन्य शुल्कों हेतु जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ अधिनियम की धारा (13) की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है

अचल संपत्ति का विवरण

(किसी भी मान्यता सहित बंधक विलेख / नवीनतम विवरण में प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार) ।) संपत्ति का न्यायसंगत बंधक, जिसका विक्रय विलेख संख्या 689 दिनांक 21.03.2014 है जो प्लॉव

नं. 297 क्षेत्रफल 0.081 हेक्टे., ग्राम कोम, तालका असनाव तहसील और जिला भदोही में स्थित, श्रीमर्त मंजीरा देवी पत्नी श्री राम केवल यादव निवासी कोम, तहसील एवं जिला भदोही के नाम पर है। ।।) संपत्ति का न्यायसंगत बंधक, जिसका विक्रय विलेख संख्या ७५० दिनांक २९.०९.२००६ है (पंजीकृ दिनांक 04.05.2007 को) जो प्लाट नं. 296/459, क्षेत्रफल 0.055 हेक्टे. और प्लॉट नं. 280 क्षेत्रफल 06 बिस्वा और 04 धूर, जो ग्राम कोम तालुका असनाव तहसील और जिला भदोही में स्थित तथ श्रीमती मंजीरा देवी पत्नी श्री राम केवल यादव निवासी कोम तहसील एवं जिला भदोही के नाम प

दिनांक : 28-02-2024 स्थान : भदोही

जिसमें उधारकर्ता(ओं) नामतः

नूरुल अमीन शाह प्राधिकृत अधिकारी

श्रीनगर 190001 कश्मीर, भारत T +91 (0) 194 2481 930.35 **F** +91 (0) 194 248 1928, **CIN**: L65110JK1938SGC000048 E info@jkbmail.com W www.jkbank.net

पंजीकृत कार्यालय निगमित मुख्यालय एम. ए. रोड,

his is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated January 15, 2024 (the "Letter of Offer' or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



# INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED

Indian Infotech and Software Limited was incorporated on May 22, 1982 with the name of Indian Leasers Limited in accordance with the provision of Companies Act. 1956. Subsequently the name of our Company was changed to Indian Infotech and Software Limited and the Registrar of Companies; Mumbai issued a fresh certificate of incorporation on July 20, 1998. Pursuant to the order of the Honorable Bombay High Court dated May 4, 2012 approving the Scheme of Arrangement, the Nikkietal Co. Limited and Lambodar Nirmit Limited was merged with Indian Infotech and Software Limited. Pursuant to completion of said merger, the Company has issued and allotted the equity shares to the shareholders of both the transferor companies, the securities of the company are listed on the BSE Ltd. (Stock Exchange) since April 19th, 1985.

Registered Office: Office No. 110, 1st Floor, Golden Chamber Pre Co-Op Soc Ltd. New Link Road Andheri West Mumbai-400053, India; Contact Person: Manish Kumar Badola, Managing Director, Tel. No.: 022-49601435 E-mail: indianinfotechsoftware@yahoo.com; Website: www.indianinfotechandsoftwareltd.in

Corporate Identification Number: L70100MH1982PLC027198

OUR PROMOTERS: MAHAMAYA FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED, JAYANTI PRIME SOFTWARE ADVISORY PRIVATE LIMITED,

GENEROSITY SHARE TRADING PRIVATE LIMITED, DHANVARSHA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED RIGHT ISSUE OF UPTO 26,14,53,270 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹1.60 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 0.60 PAISE PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹4,183.25 LAKH ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THIRTEEN (13) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY FIFTY (50) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS JANUARY 29, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 80 OF THIS LETTER OF OFFER.

\* fully subscribed

अधिकृत प्राधिकारी

BASIS OF ALLOTMENT The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Tuesday, 6th February, 2024 and closed on Tuesday, 13th February, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Thursday, 8th February, 2024. Out of the total 15800 Applications for 357180036 Rights Equity Shares, 1829 Applications for 8169581 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer, The total numbers of valid applications were 13971 for 349010455 Rights Equity Shares, which was 120,26% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange on February 23, 2024, approved the allotment of 26,14,53,270 fully paid -up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for allotment

1. The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	Number of Equity Shares Allotted - against REs (including ASBA applications) received	Number of Equity Shares Allotted - Against valid additional shares	Total Equity Shares Allotted
	Number	Number	Number
Eligible Equity Shareholders	71415408	124212787	195628195
Renouncees	6701536	59123539	65825075
Total	78116944	183336326	261453270

Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):

Category	Gross			Less: Rejections/Partial Amount			Valid		
	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)
Eligible Equity Shareholders	13434	196184230	313894768.00	113	625080	1000128.00	13321	195559150	312894640.00
Fraction	20	69045	110472.00	0	0	0.00	20	69045	110472.00
Renouncees	633	153390760	245425216.00	3	8500	13600.00	630	153382260	245411616.00
Not a eligible equity shareholders of the company	1713	7536001	12057601.60	1713	7536001	12057601.60	0	0	0.00
Total	15800	357180036	571488057.60	1829	8169581	13071329.60	13971	349010455	558416728.00

Intimations for Allotment, Refund / Rejections Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed March 01, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on February 23, 2024. The listing application was executed with BSE on 27th February, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on February 29, 2024. No physical shares were allotted in the Rights issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about 04th March, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on 28th February 2024

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI/" beginning on page 75 of the LOF. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE"

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

Date: March 1, 2024

beginning on page 614 of the LOF.

Purva Sharegistry (India) Private Ltd. CIN: U67120MH1993PTC074079 Unit no. 9. Shiv Shakti Ind. Estt. J. R. Boricha Marg, Lower Parel (E) Mumbai 400 011. Telephone: +91 22 4961 4132;

REGISTRAR TO THE ISSUE

Facsimile: +91 22 22 3570 0224 Investor grievance e-mail: support@purvashare.com https://www.purvashare.com/ Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration No.: INRO00001112

(IISL

INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED Registered office: Office No. 110, 1st Floor, WARDEN BATHTEEN & SOFTWARE LTD. Golden Chamber Pre Co-Op Soc. Ltd. New Link WAS ELWOYCE FRANCE COMPANY Road Andheri West Mumbai-400053. India Telephone: 022-49601435

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Website: www.indianinfotechandsoftwareltd.in Contact Person: Mr. Mushahid Ahmed Khan. Company Secretary & Compliance Officer

E-mail: indianinfotechsoftware@yahoo.com

Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Equity Shares applied for,

amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

FOR INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED Manish Badola

DIN: 05016172 Place: Mumbai The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, the Company at www.indianinfotechandsoftwareltd.in , the Registrar at https://www.purvashare.com and Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 18 of the LOF.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements (including their credit) and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation § under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.

Managing Director

Date: March 01, 2024

Place: Mumbai



सब्जी मण्डी शाखा

भौतिक सूचना (प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, का** प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्रीमती बबीता विश्नोई एवं श्री अनुज विश्नोई को दिनांक 03.08.2023 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 31,93,466.00 (रु. इकतीस लाख तिरान्वे हजार चार सौ छियासठ मात्र) दिनांक 22. 07.2023 तक ब्याज सहित और ब्याज, लीगल प्रभार एवं अन्य खर्चे इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणघारक राशि का प्रतिभगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदहारा ऋणघारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अघोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 29.02.2024 को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों / आस्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ़ बड़ौदा, के प्रभार वास्ते रू 31,93,466.00 (रु. इकतीस लाख तिरान्वे हजार चार सौ छियासठ मात्र) दिनांक 22.07.2023 तक ब्याज सहित और ब्याज, लीगल प्रभार एवं अन्य खर्चे इत्यादि पूर्ण चुकौती की तिथि तक के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। MISC CRL नं. 173 / 2023 में सुश्री प्रीति अग्रवाल, सीसीएम, पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-02-2024 के अनुसार सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत कब्जा

संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण निर्मित द्वितीय तल, छत स्तर की सीमा तक, बिना छत के अधिकार के, संपत्ति नं, डब्ल्यए-71 का हिस्सा (ओल्ड प्लॉट नं, 3 पर निर्मित), डब्ल्यू ए – ब्लॉक की आबादी, शकरपुर, खसरा नं. 177 में से, गांव शकरपुर खास के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110092 में स्थित, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मी.

दिनांक : 29.02.2024, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

"IMPORTANT"

vyniist care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

इण्डियन आवरसाज बेक इंदिरापुरम शाखा

( 1/3 वैभव खंड, आम्रपाली ग्रीन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद फोन - 0120-2607659 ईमेल: iob1852@iob.in)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)] जबिक, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इण्डियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों

श्री उदयराज सिंह पुत्र श्री बादाम सिंह और श्री सोमित कुमार पुत्र श्री इन्द्र पाल सिंह निवासी 144, श्रीमती प्रीति सिंह पत्नी उदय राज सिंह निवासी गली नं. 6, फेज-7, शिव आवासीय फ्लैट एसएफ 304, दूसरी मंजिल, विहार, करावल नगर, प्लॉट नंबर-17, 18, 19, दुर्गा एन्क्लेव, ग्राम-उत्तरी-पूर्वी दिल्ली-हरसौ, परगना डासना, तहसील और जिला 110094 गाजियाबाद 201001 इसके अलावा मकान नंबर साथ ही : पी-73, 1057के, चमरी दिल्ली रोड, गली नंबर-13, कैलाशपुरम, गोविन्दपुरम, अर्जुन नगर, हापुड, उ.प्र.-245101 पीएस-कविनगर, जिला (कर्जदार और बंधककर्ता भी) गाजियाबाद-201013

(इसके पश्चात 'कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर' सन्दर्भित) से सूचना में उल्लिखित 31.10.2023 तक राशि रु. 16,05,437.18/- तथा वसूली की तिथि तक अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं रेस्ट्स, चार्ज आदि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भगतान करने को कहते हुए 24.11.2023 को मांग सूचना जारी की थी।

(1) कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहा और मात्र रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) का भुगतान किया है, अतः एतद्वारा कर्जदारों/जमानतियों और जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 27 फरवरी, 2023 को कब्जा कर लिया है।

(2) कर्जदारों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है एवं सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार तिथि 31.10.2023 तक राशि रु. 16,05,437.18/- (रुपये बीस लाख बासठ हजार पांच सौ पैंसठ मात्र) तथा उपर्युक्त तिथि से यथासहमत अनुबन्ध दर पर उस पर ब्याज, मांग सूचना जारी होने के पश्चात भुगतान की तिथि तक पुनर्भुगतान, यदि कोई हो को घटाकर राशि के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रभार का विषय होगा। कब्जा लेने की तिथि तक रु. 16,40,987.18/- तथा भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं रेस्ट्स, प्रभार आदि बकाया है।

(3) प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। आवासीय फ्लैट एसएफ.304, प्लॉट नंबर 17,18,19, खसरा नंबर 76 और 74/2 की दूसरी मंजिल, दुर्गा एन्क्लेव, ग्राम हरसौ, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित, बिना छत के अधिकार के।

माप 58.52 वर्ग मीटर। सीमाएं

पूर्व - सड़क 25 फीट चौड़ी पश्चिम- प्लॉट नंबर-20 उत्तर- प्लॉट नंबर-16 दक्षिण-सड़क 20 फीट दिनांक: 27.02.2024 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थानः गाजियाबाद इंडियन ओवरसीज बैंक

सैम शाखा दिल्ली. प्रथम तल. 17स पार्लियामेंट स्टीट, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 011-40230168, मोबाइल नं. 9572326444

ई-मेल : armbdelhi@indianbank.co.in परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम,

की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सुचित किया जाता है कि प्रतिभृत क्रेडिटर इंडियन बैंक के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा इंडियन

बैंक, सैम लार्ज दिल्ली शाखा, प्रतिभृत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया था, की बिक्री (1) मैसर्स शुभम फैशन, प्रोपराइटर श्री भगत सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, ई-351, ग्रेटर कैलाश पार्ट-**II**, नई दिल्ली-110048

ALLAHABAD

**Indian Bank** 

साथ ही आरजेड-9/18, गली नं. 11, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019

साथ ही : एफ-27, द्वितीय तल, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020

(2) श्री भगत सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह (गारंटर), ई-351, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048

साथ ही आरजेड-9/18, गली नं. 11, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019

इंडियन बैंक

🔔 इलाहाबाद

साथ ही : एफ-27, द्वितीय तल, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 (3) श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री गोकल चन्द (गारंटर), पता : 228, जालम मोहल्ला, तुगलकाबाद, ग्राम जीतपुर, नईदिल्ली-110044

से इण्डियन बैंक, सैम शाखा, दिल्ली, प्रतिभूत क्रेडिटर के बकाये 28.02.2022 तक रु. 1,09,92,567/- (रुपये एक करोड़ नौ लाख बानबे हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) की वसूली के लिए 21.03.2024 को ''जो

है यही है'', "जहाँ है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी।

ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के इरादे से रखी सम्पत्ति का विशेष विवरण नीचे दिया गया है :

सम्पत्ति का विस्तत विवरण आवासीय फ्लैट, तीसरी मंजिल, छत एवं ऊपर के अधिकार सहित (सामने से दाहिनी ओर) का सम्पूर्ण भाग, क्षेत्रफल 650 वर्ग फीट, सम्पत्ति सं. ई-351, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-Ⅱ, नई दिल्ली-110048 पर स्थित, श्री भगत सिंह के नाम पर विलेख के अनुसार सीमाएँ : पूर्व : प्लॉट नं. ई-349 पश्चिम : सम्पत्ति का भाग फिर प्लॉट नं. ई-353 उत्तर : सर्विस लेन दक्षिण: रोड सम्पत्ति पर ऋणभार बैंक को ज्ञात नहीं आरक्षित मूल्य रु. 85,00,000/- (रुपये पिचासी लाख मात्र) ईएमडी राशि रु. 8,50,000/- (रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र) न्यूनतम वृद्धि राशि रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) ई-नीलामी की तिथि एवं समय 21.03.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच सम्पत्ति आईडी सं. IDIB50341661030

संविदाकारों को ऑनलाइन संविदा में भाग लेने के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) देखने का परामर्श दिया जाता है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी के हेल्पडेस्क नं. 033–23400020/23400021/23400022 तथा सेवा प्रदाता के हेल्प डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्पलाइन नम्बरों पर सम्पर्क करें। एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण की स्थिति के लिए कृपया ibapiop@mstcecommerce.com पर तथा ईएमडी स्थिति के लिए कृपया ibapifin@mstcecommerce.com पर सम्पर्क करें।

सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के फोटोग्राफ एवं नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in तथा इस पोर्टल से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के लिए कृपया हेल्प लाइन नम्बर '18001025026' तथा '011-41106131'

संविदाकारों को वेबसाइट https://ibapi.in तथा www.mstcecommerce.com में सम्पत्ति की खोज करने का परामर्श दिया जाता है। तेथि : 01.03.2024 स्थान : नई दिल्ली

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the

letter of offer dated January 24, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE").



# QUEST SOFTECH (INDIA) LIMITED

CIN: L72200MH2000PLC125359

Our Company was incorporated as a Private limited company under the Companies Act, 1956 in the name of 'Quest Softech (India) Private Limited' vide Certificate of Incorporation dated March 27, 2000 with the Registrar of Companies, Mumbai. Our Company was converted in to a public limited company and name of our Company was changed to 'Quest Softech (India) Limited' and a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Mumbai on March 18, 2008. The company got listed on BSE Limited dated July 05, 2013.

Registered Office: Cabin No 11, 7th Floor Times Square, Andheri Workflo, next to Sai Service, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069 Corporate Office: 303 3rd Floor Kanha Capital, R C Dutt Road, Vadodara - 390007, Gujarat, India

Tel: 022-41495895 | Email: compliance@ampvolts.com; | Website: www.ampvolts.com **Contact Person:** Mittal Kevin Shah, Company Secretary and Compliance Officer:

PROMOTERS OF OUR COMPANY: AV AC DC RENEW PRIVATE LIMITED

ISSUE OF UP TO 1,60,00,000 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 30 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF RS. 20 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO RS. 48 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 8 (EIGHT) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 (FIVE) EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JANUARY 08, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 102 OF OUR LETTER OF OFFER.

## CORRIGENDUM

Kindly consider the below change in commencement of Trading date on BSE Limited:

The Rights Equity Shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE on or about Wednesday, March 06, 2024 instead of the Rights Equity Shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE on or about March 01, 2024, as stated in the the news paper advertsiment for Basis of Allotment (Post Issue) dated February 28, 2024.

This is with reference to Letter of Offer dated January 24, 2024 filed with BSE Limited ("BSE") in relation to the Right Issue. All capitalized term used in the notice shall unless the context otherwise requires, has the meaning prescribed in the Letter of Offer.

INVESTOR MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM.

and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 19 of the Letter of Offer.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALISATION FORM

20, 2023 from BSE Limited for using its name in this offer document for listing of our shares on the BSE Limited. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Draft Letter of Offer had not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of the issue is less than Rs. 50 Crores. As required, a copy of the Letter of Offer has been submitted to SEBI. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text as provided in "Other Regulatory"

The Rights Issue offered through the Letter of Offer are proposed to be listed on the BSE Limited. Our Company has received an In-Principle Approval Letter dated December

and Statutory Disclosures" on page 95 of the Letter of Offer. **DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the

letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited. **REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY SECATARY AND COMPLIANCE OFFICER** 

Date: March 01, 2024

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED Address: Unit No. 9. Shiv Shakti Ind. Estate, J R Boricha Marg. Lower Parel (E), Mumbai, Maharashtra, 400011

**Tel:** 022-4961 4132 / 3199 8810 | **E-mail ID:** support@purvashare.com Website: www.purvashare.com **Investor grievance e-mail**: support@purvashare.com

Contact person: Deepali Dhuri **Designation of Contact Person:** Compliance Officer **SEBI registration number:** INR000001112



Mittal Kevin Shah

Cabin No 11, 7<sup>th</sup> Floor, Times Square, Andheri Workflo, Next to Sai Service, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069 **Telephone**: 022-41495895 **Email:** compliance@ampvolts.com

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

> For QUEST SOFTECH (INDIA) LIMITED Sd/-

Ms. Mittal Kevin Shah

अधिकृत प्राधिकारी

**Company Secretary and Compliance Officer** Place: Mumbai **Disclaimer:** Our Company has filed a Letter of Offer with Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of the company at www.ampvolts.com, website of the Stock Exchange where the Equity Shares are listed on BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Share jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or soid in the United States absent registration und US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

of tour war. andian Bank शाखा :- इंड एमएसएमई फरीदाबाद

A.FRIERE

किरायाकृत परिसरों में विद्यमान आपकी सभी घरेलू

वस्तुओं, निजी सामान का स्थानांतरण / निस्तारण 1. मैसर्स आर.एस. पैकेजिंग इंडस्ट्रीज (प्रोप. श्री भूपिंदर सहरावत), पता : हाउस नंबर एमसीएफ नंबर 8159, खसरा नंबर 11, किला नंबर 14, मौजा नगला गुजरान, नगला एन्क्लेव पार्ट-2, तहसील बङ्खल जिला फरीदाबाद, हरियाणा; पिन 131301, संपर्क : 8010596062

2. श्री भूपिंदर कुमार सहरावत (उधारकर्ता), पता : मकान नंबर एमसीएफ नंबर 8159, खसरा नंबर 1 किला नंबर 14, मौजा नगला गुजरान, नगला एन्क्लेव पार्ट-2, तहसील बड़खल, जिला फरीदाबाद हरियाणा, अन्य पता यहां पर भी : ग्राम गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, पिन : 131301, संपर्क 8010596062

3. श्रीमती पूनम देवी पत्नी भूपिंदर कुमार सहरावत, (बंधककर्ता और गारंटर), पता : मकान नंबर एमसीएफ नंबर 8159, खसरा नंबर 11, किला नंबर 14, मौजा नगला गुजरान, नगला एन्क्लेव पार्ट–2 तहसील बङखल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, अन्य पता यहां पर भी : ग्राम गोहाना, जिला सोनीपत हरियाणा, पिन : 131301, संपर्क : 8010596062

4. श्री भूपिंदर कुमार सहरावत, (उधारकर्ता), पता : ग्राम गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, पिन 131301, संपर्क : 8010596062

विषय : ऋण खाता :- मैसर्स आर.एस. पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक, इंड एमएसएमई फरीदाबा शाखा के साथ-संदर्भ

मैसर्स आर.एस. पैकेजिंग इंडस्ट्रीज (प्रोप. श्री भूपिंदर सहरावत) ने हमसे कुछ ऋण सुविधाएं प्राप्त व हैं। उक्त ऋण का पुनर्भुगतान कुछ संपत्तियों को गिरवी रखकर सुरक्षित किया गया था। आप बैंक क बकाया भुगतान करने में विफल रहे थे और इसलिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस दिनांक 17/06/2021 के माध्यम से आपको देय राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि 60 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक प्रतिभूतिय को अपने कब्जे में लेकर अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा।

चूँकि आप भगतान करने में विफल रहे थे, अतः बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद से संपर्क किय था, जिन्होंने सुरक्षित परिसंपत्ति का भौतिक कब्जा सुरक्षित करने और उसे बैंक के अधिकृत अधिकारी को सौंपने के लिए एक्सईएन एचएसएएमबी को नियुक्त किया था। तदनुसार, एक्सईएन एचएसएएमब ने डीएम कब्जा आदेश दिनांक 05/6/2023 के अनुपालन में 05.09.2023 को सुरक्षित संपत्ति क भौतिक कब्जा सुरक्षित कर लिया था, जिसके बारे में नीचे दी गई अनुसूची में पूरा विवरण है। श्री रमेश चंद देसवाल (एक्सईएन, एचएसएएमबी, फरीदाबाद) के माध्यम से भौतिक कब्जा लेते समय, बैंक अनुसूची–उल्लेखित संपत्ति के अंदर पाई गई वस्तुओं की एक सूची ली थी, जो बैंक के पास गिरवी नहीं थी। इसकी एक प्रति एओ के पास संलग्न / उपलब्ध है।

हमने पहले ही आपसे पत्र दिनांक 05/09/2023, 16/09/2023 और अंतिम अनुस्मारक दिनांक 27 / 12 / 2023 के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति के परिसरों से अपनी निजी वस्तुओं और घरेलू सामान को स्थानांतरित करने / हटाने का अनुरोध किया है। हालाँकि, आप उक्त किसी भी अनुरोध पर ध्या देने में विफल रहे हैं और तदनुसार, आपके संवेदनहीन और लापरवाह कृत्य से दुखी होकर, बैंक को आपके सभी घरेलू वस्तुओं और व्यक्तिगत सामान को सुरक्षित संपत्ति से स्थानांतरित करने / हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा था और उन्हें 20/2/2024 के अनुसार 2 दुकानों और छत पर पता-एमसीएफ 86/1 का हिस्सा, होली फेथ स्कूल के पास, सुभाष चौक, नगला एन्क्लेव पार्ट 2

फरीदाबाद में किराए के परिसरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। हम एतद्द्वारा आपसे अनुरोध करते हैं कि इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से अपने जोखिम और लाग पर उपर्युक्त किरायाकृत परिसरों से उक्त वस्तुओं को शीघ्रातिशीघ्र और अधिकतम 1 महीने के भीत हटा दें। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि हम उपरोक्त वस्तुओं के लिये दुर्घटना, आग, चोरी या किसी अन्य अप्रत्याशित और अलौकिक कारणवश ह्यी किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बैंक इन वस्तुओं के लिए कोई बीमा कवरेर नहीं लेगा, क्योंकि इन पर बैंक से शुल्क नहीं लिया जाता है / बंधक नहीं लगाया जाता है । कृपया आगे ध्यान दें कि किराया, इत्यादि की लागतें आपके व्यय पर वहन की जाएंगी और हम आपसे इसकी वसूली करेंगे।

स्कूल के पास, सुभाष चौक, नगला एन्क्लेव पार्ट–2, फरीदाबाद

किराये की संपत्ति का पता : एमसीएफ 86/1 का हिस्सा बनने वाली 2 दुकानें और छत, होली फेथ

प्राधिकृत अधिकारी, मनीष मंगलानी, 7000751084 इंडियन बैंक

जिस्हा जम्मू एण्ड कश्मीर बेंक लिसिटेड क्लस्टर कार्यालय, अमीन कॉम्प्लेक्स, अकबरी गेट, लखनऊ-03

इमेल : cluluck@jkbmail.com, वेबसाइट : www.jkbank.com

2 मार्च, 2024

संदर्भ संः जेकेबी / एडीवी / भदोही / 2023-24 दिनांकित: 28-02-2024

> अधिग्रहण सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ

पठित सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सूचना जबिक, मैं नुरुल अमीन शाह, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन (सरफॉएसि) अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 08-11-2023 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता(ओं) नामतः

1. मैसर्स आर. के. वाई. आईईएनटी भट्टा, प्रोप. श्री राम केवल यादव पुत्र श्री बौड़म यादव निवासी कोम पल्हैया, भदोही, यूनिट पता : कोम फूल वारिया, भदोही। 2. श्री राम केवल यादव पुत्र श्री बौड़म यादव निवासी कोम पल्हैया, भदोही (उधारकर्ता) 3. श्रीमती मंजीरा देवी पत्नी श्री राम केवल यादव निवासी कोम तहसील एवं जिला भदोही

4. श्रीमती मंजीरा देवी पत्नी राम केवल यादव निवासी कोम तहसील और जिला भदोही

5. श्री रमा शंकर यादव पुत्र श्री राम केवल यादव निवासी कोम भदोही (गारंटर) को उधारकर्ता के खाता में 31-10-2023 के अनुसार शेष बकाया के रूप में रु 20,70,720.57/- (रुपये बीस लाख सत्तर हजार सात सौ बीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) की एक राशि का, राशि पर नियत भावी ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उक्त ऋणकर्ता उक्त राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वार उक्त ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित बंधक संपत्ति का, उक्त नियमावली व नियम 8 के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शिक्तयों के प्रयोगांतर्गत, 28 फरवरी 2024 को अधिग्रहण कर लिया है।

उपर्युक्त उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप मे सावधान किया जाता है कि उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार लेन-देन न करें तथा उक्त संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 20,70,720.57/- (रुपये बीस लाख सत्तर हजार सात सौ बीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) की कुल राशि तथा 01-11-2023 से राशि पर नियत भावी ब्याज तथा वहनकृत अथवा वहनयोग्य अन्य शुल्कों हेतु जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ अधिनियम की धारा (13) की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है

अचल संपत्ति का विवरण

(किसी भी मान्यता सहित बंधक विलेख / नवीनतम विवरण में प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार)

।) संपत्ति का न्यायसंगत बंधक, जिसका विक्रय विलेख संख्या 689 दिनांक 21.03.2014 है जो प्लॉव नं. 297 क्षेत्रफल 0.081 हेक्टे., ग्राम कोम, तालुका असनाव तहसील और जिला भदोही में स्थित, श्रीमर्त मंजीरा देवी पत्नी श्री राम केवल यादव निवासी कोम, तहसील एवं जिला भदोही के नाम पर है। ।।) संपत्ति का न्यायसंगत बंधक, जिसका विक्रय विलेख संख्या ७५० दिनांक २९.०९.२००६ है (पंजीकृत दिनांक 04.05.2007 को) जो प्लाट नं. 296/459, क्षेत्रफल 0.055 हेक्टे. और प्लॉट नं. 280 क्षेत्रफल 06 बिस्वा और 04 धूर, जो ग्राम कोम तालुका असनाव तहसील और जिला भदोही में स्थित तथ श्रीमती मंजीरा देवी पत्नी श्री राम केवल यादव निवासी कोम तहसील एवं जिला भदोही के नाम प

दिनांक : 28-02-2024 स्थान : भदोही

नूरुल अमीन शाह प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय निगमित मुख्यालय एम. ए. रोड, श्रीनगर 190001 कश्मीर, भारत T +91 (0) 194 2481 930.35 F +91 (0) 194 248 1928, CIN: L65110JK1938SGC000048 E info@jkbmail.com W www.jkbank.net

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated January 15, 2024 (the "Letter of Offer' or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



## **INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED**

Indian Infotech and Software Limited was incorporated on May 22, 1982 with the name of Indian Leasers Limited in accordance with the provision of Companies Act. 1956. Subsequently the name of our Company was changed to Indian Infotech and Software Limited and the Registrar of Companies; Mumbai issued a fresh certificate of incorporation on July 20, 1998. Pursuant to the order of the Honorable Bombay High Court dated May 4, 2012 approving the Scheme of Arrangement, the Nikkietal Co. Limited and Lambodar Nirmit Limited was merged with Indian Infotech and Software Limited. Pursuant to completion of said merger, the Company has issued and allotted the equity shares to the shareholders of both the transferor companies, the securities of the company are listed on the BSE Ltd. (Stock Exchange)

Registered Office: Office No. 110, 1st Floor, Golden Chamber Pre Co-Op Soc Ltd. New Link Road Andheri West Mumbai-400053, India; Contact Person: Manish Kumar Badola, Managing Director, Tel. No.: 022-49601435 E-mail: indianinfotechsoftware@yahoo.com; Website: www.indianinfotechandsoftwareltd.in

Corporate Identification Number: L70100MH1982PLC027198 OUR PROMOTERS: MAHAMAYA FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED, JAYANTI PRIME SOFTWARE ADVISORY PRIVATE LIMITED. GENEROSITY SHARE TRADING PRIVATE LIMITED, DHANVARSHA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

RIGHT ISSUE OF UPTO 26,14,53,270 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹1.60 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 0.60 PAISE PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹4,183.25 LAKH ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THIRTEEN (13) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY FIFTY (50) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS JANUARY 29, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 80 OF THIS LETTER OF OFFER. \* fully subscribed

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Tuesday, 6th February, 2024 and closed on Tuesday, 13th February, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Thursday, 8th February, 2024. Out of the total 15800 Applications for 357180036 Rights Equity Shares, 1829 Applications for 8169581 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer, The total numbers of valid applications were 13971 for 349010455 Rights Equity Shares, which was 120.26% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange on February 23, 2024, approved the allotment of 26,14,53,270 fully paid -up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for allotment.

The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	Number of Equity Shares Allotted - against REs (including ASBA applications) received	Number of Equity Shares Allotted - Against valid additional shares	Total Equity Shares Allotted	
	Number	Number	Number	
Eligible Equity Shareholders	71415408	124212787	195628195	
Renouncees	6701536	59123539	65825075	
Total	78116944	183336326	261453270	

Information regarding total Applications received (including ASBA applications received).

Category	Gross			Less: Rejections/Partial Amount			Valid		
	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)
Eligible Equity Shareholders	13434	196184230	313894768.00	113	625080	1000128.00	13321	195559150	312894640.00
Fraction	20	69045	110472.00	0	. 0	0.00	20	69045	110472.00
Renouncees	633	153390760	245425216.00	3	8500	13600.00	630	153382260	245411616.00
Not a eligible equity shareholders of the company	1713	7536001	12057601.60	1713	7536001	12057601.60	0	0	0.00
Total	15800	357180036	571488057.60	1829	8169581	13071329.60	13971	349010455	558416728.00

Intimations for Allotment, Refund / Rejections Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed March 01, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on February 23, 2024. The listing application was executed with BSE on 27th February, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on February 29, 2024. No physical shares were allotted in the Rights issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about 04th March, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on 28th February 2024

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI/" beginning on page 75 of the LOF

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 614 of the LOF.

Date: March 1, 2024

BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Purva Sharegistry (India) Private Ltd. CIN: U67120MH1993PTC074079 Unit no. 9, Shiv Shakti Ind. Estt. J. R. Boricha Marg. Lower Parel (E) Mumbai 400 011. Telephone: +91 22 4961 4132:

REGISTRAR TO THE ISSUE

Facsimile: +91 22 22 3570 0224 Investor grievance e-mail: support@purvashare.com https://www.purvashare.com/ Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration No.: INRO00001112

(IISL

INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED Registered office: Office No. 110, 1st Floor, WADERN INFORCER & SOFTWARE LTD. Golden Chamber Pre Co-Op Soc. Ltd. New Link NON SERVICE CHARMY Road Andheri West Mumbai-400053, India Telephone: 022-49601435

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

E-mail: indianinfotechsoftware@vahoo.com Website: www.indianinfotechandsoftwareltd.in Contact Person: Mr. Mushahid Ahmed Khan. Company Secretary & Compliance Officer

Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Equity Shares applied for,

amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE

FOR INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED

Manish Badola Managing Director

Place: Mumbai DIN: 05016172 The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, the Company at www.indianinfotechandsoftwareltd.in , the Registrar at https://www.purvashare.com and Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 18 of the LOF.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements (including their credit) and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation § under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.

प्तर्वसामान्य जनतेस येथे सूचना देण्यात येत आहे की **स्वर्गीय पार्वती अर्जुन थोरात** या फ्लॅट जागा अर्थात फ्लॅट क्र.३-००४, हुनुमान नगर कोहौोलि., इर्ला पुल एस.व्ही. रोड, सीटीएस क्र.४५५, टाटा कंपाऊंडच्या मागे अंधेरी (प.), मुंबई-४०००५८, क्षेत्रफळ २२५ चौ.फू. र जागेच्या कायदेशीर/वहिवाटदार होत्या.

स्वर्गीय पार्वती अर्जुन थोरात यांना त्यांचे जुने झोपडीच्य ऐवजी दिनांक २०.११.२००० रोजीचे वाटपपत्रानुसाः एसआरए योजने अंतर्गत सदर फ्लॅट जागा देण्यात आर्ल

सदर स्वर्गीय पार्वती अर्जन थोरात यांचे मंबई येथे दिनांव २८.११.२०२० रोजी निधन झाले, त्यांच्या पश्चा त्यांच्या मली नामे श्रीमती शोभा लक्ष्मण रिकीबे ऊर्फ शोभा अर्जुन थोरात व इंदु अर्जुन थोरात हे कायदेशी वारसदार व प्रतिनिधी आहेत आणि यांच्या व्यतिरित्त स्वर्गीय पार्वती अर्जुन थोरात यांचे अन्य कोणीही कायदेशीर वारसदार व प्रतिनिधी नाहीत.

जर कोणा व्यक्तीस सदर फ्लॅटबाबत दावा. आक्षेप कायदेशीर वारसदार, अधिकार, हक्क, हित असल्यार त्यांनी माझ्याकडे सर्व आवश्यक दस्तावेजी पुराव्यांसह सद जाहीर सूचना प्रकाशनापासून **१५ दिवसात** कळवावे आणि संपर्क करावा. अन्यथा अशा व्यक्तींचे दावा त्याग किंव स्थिगत केले आहेत असे समजले जाईल.

दिनांक: 0२.0३.२0२४ जे.पी. त्रिपार्ठ (वकील उच्च न्यायालय, मुंबई) कार्यालय: अब्दल अझिझ चाळ, २४, खोली क्र.१ एल.बी.एस. मार्ग, नवपाडा, कुर्ला (प.), मुंबई-४०००७०

#### जाहीर सूचना

सर्वसामान्य जनतेस येथे सचना देण्यात येत आहे की. **श्रीमती अमिता नरेंद्र मोदी** या फ्लॅट क्र.४०३, ४१ नजला. शांतीयान-१ को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसाय लेमिटेड, प्लॉट क्र.१९, सर्व्हे क्र.२८७ धारक प्लॉ पैकी, मालाड (पुर्व), मुंबई-४०००९७ येथील रहिवास आहेत. माझ्या अशिलांच्या वतीने सर्वसामान्य जनतेर येथे सूचना देण्यात येत आहे की, माझे अशिलांची पर्त नरेंद्र जयंतीलाल मोदी व मी त्यांच्या हयातीत फ्लॅ क. ४०३. क्षेत्रफळ ६०८ चौ.फ.. मालाड (पर्व). मंबर्ड ४०००९७ येथील जागेचे मालक होतो आर् आमच्याकडे सदर जागेचे संपर्ण अधिकार, दावा हित यासह वहिवाट, वापर, ताबा होता आणि यां<sup>-</sup> मुंबई येथे २ एप्रिल, २०१९ रोजी निधन झाले, त्यांच्य ु पश्चात मी स्वत: आणि माझा मूलगा **मिहीर नरें**ट्र **मोदी** आणि विवाहीत मुलगी **मनाली दिगंत वखारि**य यांना मयत पती व वडिलांची मालमत्तेच्या दाव्याच अधिकार आहे आणि माझ्याकडून मुळ करारनामा हरवल आहे. माझ्या अशिलांनी सर्वसामान्य जनतेस येथे सचन दिली आहे की, जर कोणा व्यक्तीस सदर फ्लॅटबाब काही अधिकार, दावा किंवा हित असल्यास त्यान आवश्यक दस्तावेजांसह सदर सचना प्रकाशन तारखेपास **१५ दिवसात** कळवावे आणि वर नमुद केलेल्या पत्त्याव गझ्या वकिलाला संपर्क करावा.

दिनांक:0२.0३.२0२४ रजनीश जी. मिश्रा वकील – मुंबई उच्च न्यायालय दुकान क्र.६४, अजंता स्क्वेअर मार्केट लेन, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-४०००९१.

#### जाहीर सूचना

सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचना रेण्यात येत आहे की, माइं अशील १) निर्माला बापना व १) कल्पना बापना हे फर्वेंट जागा अर्थात फर्वेट क्र.७०४, 'बी' विंग, ७वा मजला, मनिष अपार्ट मेंट, निर्माल को अर्पापरिटल्ड हॉसिंग सोसायर्टी लिमिटेड, मरोळ चर्च रोड, अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००५४, ालामस्ड, मराळ चच राइ, अधरा (पुव), मुबइ-४००००५, अंत्रेष्ठळ सुमोर ७३४ ची. फु. विल्डम गुंबई उपनगर या जागेचे मालक आहेत आणि माइचा अशिलांकडून उपरोक्त सदर पतंच जागेचे दोन (२) मुळ विक्री कररानामा अर्थात १) मे. माला एन्टरप्रायड्रोस आणि श्री. पुर्थानेम डी. पालिवाला यांच्या दरम्यान झालेला दिनांक ०१.०६.१९८१ रोजीचा आणि २) श्री. पुर्थानेम डी. पालिवाला आणि श्रीमती किरण एव. **चुकेरबुटी** यांच्या दरम्यान झालेला दिनांक ३०.०८.१९८१ रोजीचा करारनामा.

राजांचा करारामा।
अर्थात १) में. मनिषा एन्टप्रायझेस आणि श्री. पुराषोत्तम
डी. पालिवाला यांच्या दास्यान झालेला दिनांक ०९.०६.१९८१
रोजींचा आणि १) श्री. पुराषोत्तम डी. पालिवाला आणि श्रीमती
करण एच. बुक्तेस्वुटी यांच्या दास्यान झालेला दिनांक
३०.०८.१९८६ रोजींचा करारामाम माझ्या अशिलाकडून हरवले/
गहाळ झाले आहे आणि त्यांनी एम. आय.डी.सी. पोलीस ठाणे येथे दिनांक २९ ०२ २०२३ रोजी लापता तकार क २७९४/ २०२४ अंतर्गत नोंद केली आहे.

जर कोणा व्यक्तीस सदर फ्लॅटबाबत कोणताही अधिकार, हक्ष हित असल्यास त्यांनी यागेय पराव्यांसह खालील स्वाक्षरीकर्त्यांक स्तर भुवना अनु शुन्यत्वर कारण स्वाराज्य स्वाराज्य स्वाराज्य स्वाराज्य स्वाराज्य स्वाराज्य स्वाराज्य स्वाराज्य स्वर सूचना अकाशन तारखेशासून १५ दिवसात कळवावे. अन्यथं कोणताही दावा विचारात घेतला जाणार नाही. दिनांक: ०२.०३.२०२४ चंद्रशेखर आर. कनोजिय वकील – मुंबई उच्च न्यायालय

कार्यालय क्र.दकान क्र.१, शिव शक्ती डेअरी, मरोळ पाईप लाईन ए.के. रोड, अंधेरी पुर्व, मुंबई–०५९. मोबा.: ९०२२२२३३७० ८९७६९७३३७०, ई–मेल: kanojia008@gmail.com

#### जाहीर नोटीस

सर्व लोकांना ह्या नोटीसीने कळविण्यात येते कि फ्लॅट नं.सी/४१४, चौथा मजला, तिरुपती प्लाझा को-ऑप. हौ. सो. लि., बालाजी नगर स्टेशन रोड, भाईंदर प., जि. ठाणे ४०११०१, श्री प्यारचंद जी. जैन व श्रीमती कांता पी. जैन, ह्यांच्या नावांनी होता. परंतु **श्र** प्यारचंद जी. जैन. हे ता. १९/११/२०१७. रोर्ज मयत झालेले असन त्यांच्या वारसापैकी म्हण श्रीमती कांता पी. जैन, ह्यांनी सदर फ्लॅट शेअर सर्टीफिकेटमधील ५०% हिस्सा आपल्य नावानी करून पूर्ण मालक होण्यासाट सोसायटीला अर्ज केलेला आहे. तरी सद फ्लॅटवर कोणाही व्यक्तीचा हक्क असेल त त्यांनी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून १४ दिवसाचे आत आपल्याजवळील पराव्यास ए/१०४, न्यू श्री सिद्धिविनायक सी.एच.एस लि., स्टेशन रोड, भाईदर (प.), जि. ठाणे ४०११०१, ह्या पत्त्यावर लेखी कळवावे. अन्यथ तसा कुठल्याही प्रकारचा हक्क हितसंबंध नार्ह असे समजण्यात येईल व सोसायटीला सदर अव मंजुर करता येईल ह्याची नोंद ध्यावी.

पुनित सुनील गारोडिया (वर्कील, उच्च न्यायालय मुंबई) ठिकाण : भाईदर

#### हरवले आहे

मी खाली श्री. केवल भारतकुमार आह्या, राहणार - फ्लॅट नं. ४/१६. बोर्ला सीएचएस. डॉ. सी.पी. गिडवाणी रोड, चेंब्र (ई), मुंबई-४०००७४. यांचे फ्लॅट क्रमांक ३०२, 'सी'' विंग, रॉयल फ्लोरा, मौजे-भादवड, तालुका- भिवंडी येथील सर्व्हे क्र. ६९, हिस्सा क्र. 9 पैकी, नवीन सर्व्हे क्र. ६९/१/२०, ६९/१/१३, ६९/१/१४ ओरीजनल ॲग्रीमेंट नोंदणीची कागदपत्रे ५० पाने रहात असलेल्या घराचे नुतनीकरण करताना हरवली आहेत. त्याची तकार गोवंडी पोलीस स्टेशन, मध्ये गहाळ मिसिंग रजि नं. १४९०८/ २०२४ दि. १७/०२/२०२४ तकार दाखल केली आहे.

जर कोणाला हे दस्तऐवज मिळाल्यास किंवा काही आक्षेप असल्यास त्यांनी प्रकाशनापासून ७ दिवसांच्या आत खालील पत्त्यावर संपर्क साधावा.

सहि/-श्री. केवल भारतकुमार आह्या, फ्लॅट नं. ४/१६, बोर्ला सीएचएस, डॉ. सी.पी. गिडवाणी रोड, चेंबूर (ई), मंबई- ४०००७४.

#### **RE-DEVELOPMENT NOTICE**

Sealed Offers Are Invited from experienced. Financially Sound, Reputed Builders / Developers for Redevelopment of

TAGORE NAGAR SHANTIVAN C.H.S. Ltd. Reg.No.B.O.M(W)/H.S.G.(TC)9658 of 1997 Survey No.113(pt.), C.T.S.No.338(pt.), Bldg. No 409. Ramakant Deshmukh Marg, Tagore Nagar,Vikhroli (East), Mumbai-400 083.

#### PROJECT DETAILS

Plot area of 817.02 sq.mt. as per MHADA ease Agreement, Total Residential Member 96. having 1 Building Conveyanced Society. Offer may be submitted at Architect/PMC's Office CONSULTANTS COMBINE

**Technical Consultants** Off. Bldg No.5, Opp Bldg. No. 50, Pant Nagar,

Ghatkopar (E), Mumbai - 75. M No : 9820047509 Last Date of submitting Offer dt.17/03/2024

lote: The Society reserves its rights to accept of eject any Offers without assigning any reason.

#### PUBLIC NOTICE

जाहीर नोटिस

र्यावरण गट, स्वयंसेवी संस्था आणि इतरांन

नचित केले जाते की. महाराष्ट्र सरकार पर्यावरण

वैभाग रुम नं. २१७, दुसरी मजला, मंत्रालय

वेस्तारित, मुंबई - ४००० ३२, यांनी त्यांच्या पत्र

ь FC23B038MH169930 फाइल कमांक

SIA/MH/INFRA2/418248/2023, दिनांक

२१/०७/२०२३, याद्वारे मेसर्स प्रभात सदन प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, रबरवाला हाऊस,

इॅ. ए. आर. नायुर रोड, आग्रीपाडा, मुंबई- १º

नवारा-५ वारा सा. ६त. प्रम. १५०४, मायखर विभाग, आग्रीपाडा (प.) ई — वॉर्ड, मुंबई ४०० ०११, येथील निवासी तसेच व्यावसायिक

. प्रस्तावित प्रकल्पासाठी पर्यावरण विषयक मंजूर्र

देली आहे. सदर परवानगी पत्राच्या प्रती महाराँ

शासन, पर्यावरण विभाग मंत्रालय व महाराष

ाज्य प्रदेषण नियंत्रण मंडळाकडे उपलब्ध आहेत

याचपमाँणे मंजरी पत्राची पत पर्यावरण आणि वन

नंत्रालयाच्या https://parivesh.nic.in/ या

मे. प्रभात सदन प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड.

PUBLIC NOTICE

Shri. Ashok Namdeo Dhomse was owne

of Flat No. A-1, on Ground Floor, admeasuring

492 sq. ft, of building known as "Jay Shram Safalya Co. Op. Hsg. Soc. Ltd.", situate at Plot – 10, Sector 4, Shreenagar, Wagle Estate,

Thane – 400 064, along with 5 nos. shares Cert. No. 03, Dist. Nos. 011 to 015 [botl

inclusivel, so issued by the society in his favour

The said Shri Ashok Namdeo Dhomse die

ntestate on 13th March 2004, leaving behind

him, Smt. Vijaya Ashok Dhomse [widowl

Smt. Anagha Tejas Ingale [married daughter & Shri. Chaitanya Ashok Dhomse [son], as

his only legal heirs and representatives

entitled to succeed his estates, including the abovesaid flat and the abovesaid shares

The said Smt. Anagha Teias Ingale &

Shri. Chaitanya Ashok Dhomse are intending to release their all and entire undivided

share and rights in the abovesaid flat and the

abovesaid shares in favour of the said Smt. Vijaya Ashok Dhomse, being their mother.

Any person/s who has/have any objection of whatsoever nature or claiming to be legal

heirs of the said Shri. Ashok Namdeo Dhoms

ought to intimate to me at "Legal Point" G/2-A, Komal Tower, Patel Nagar, Bhayandar

W), Pin 401 101, within 7 days from the date

hereof, falling in which, it shall be deemed that such alleged right/s, claim/s, is/are released, relinquished, waived, abandoned

and not all existing to all and the said Smt. Anagha Tejas Ingale & Shri. Chaitanya Ashok Dhomse shall execute Release Deed

in favour of the said Smt. Vijaya Ashok Dhomse

Amit Parekh[Advocate, High Court]

fully subscribed

02nd March 2024

भायखळ

रबरवाला हाऊस

डॉ. ए. आर. नायर रोड,

आग्रीपाडा, मुंबई- 11,महाराष्ट्र.

महाराष्ट्र यांना सी. एस. क्र. १९०२,

Notice is hereby given that the Original Agreement Document No. 1335/2006 Dated 11/02/2006 Entered nto between M/s. KRYPTON MRS. SHOBHA CHANDRAKANT BHATTE of Flat No **201**, 2nd Floor, PRABHA VINAYAK CHSL, New Prabhadevi Road, Prabhadevi, Mumbai- 400025, has een Lost & Complaint lodged with Virar Police Station wide Complain

No. 412/2024, Dated: 28/02/2024. fanyone Finds it or having any claim bjection should contact at above elow address within 07 Days.

Advocate Mahesh B.Joshi 36,Solicitor Bunglow, Ranisati Marg Malad (E), Mumbai-400097 Place: Mumbai Date: 02/03/2024

#### जाहीर नोटीस

माझे पक्षकार सो. भावना राकेश वर्मा हिचे पती श्री. राकेश रमेशचंद वर्मा हयांनी गाव मोजे विरार येथील ''श्री सिध्दीविनायक'' कॉ. ऑप. हो. सो. लि या सोसायटीमधील फ्लॅट क्र. १२०, पहिल मजला, क्षेत्र ३८५ चौ. फुट बिल्टअप एरिया असलेला फ्लॅट हा श्री. इम्तियाक गुक्तार शेख हयांच्याकडून दिनांक २९/०८/२०१८ रोजी विकत घेतला आहे व त्यानंतर त्यांनी त्यांची पत्नी सो. भावना राकेश वर्मा हिला दिनांक ०५/०४/२०२३ रोजी नोंदणीकृत बक्षीसपत्राने दस्त क्रमांक ४६४०/२०२३ अन्वये बक्षीस

दिलेला आहे. सदर फ्लॅट हा मे. सिध्दीविनायक बिल्डर्स व डेव्हलपर्स तर्फे श्री. संजय पवार हयांच्याकड्न श्री. अमेय गणपत पाटील यांनी दिनांक १२/०५/२००८ रोजी विकत घेतला होता. तसेच सदर फ्लॅट हा श्री. इम्तियाक गुक्तार शेख यांनी श्री. अमेय गणपत पाटील हयांच्याकडून दिनांक ०७/०९/२०१७ रोजी विकत घेतला होता. सदर करारनाम्याच्या दिनांक १२/०५/२००८ व दिनांक ०७/०९/२०१७ रोजीच्या मुळ कराराच्या प्रती हया गहाळ झाल्या असून त्या शोधूनही सापडत नाही.

सदर दस्त कोणाला मिळाले असल्यास सदर सुचना प्रकाशन झाल्यापासून १४ दिवसात माझे कार्यालयाचे खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर दयावी सही/

> **ॲड. अर्चना पयेर**, वकील शॉप नं. ४,ग्रीन पार्क, रामाकृष्ण स्कुल समोर, बोळिंज,विरार (प.), तालुका. वसई, जिल्हा पालघर.

# रोज वाचा दै. 'मुंबई लक्षदीप'

महाराष्ट शासन अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मंबई शहर यांचे प्राधिकरण पहिला मजला जुने जकात घर,शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट,

मंबई-४००००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.con PH. NO- (022) 22890093 <u>जाहिर नोटीस</u>

श्री. अमित चंद्रकांत दली विरुध्द सक्षम प्राधिकारी ०१ झो.पुं.प्रा व इतर १

श्री. गुलाबसिंग सुरजसिंह जाधव सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर, वरळी,

(प्रतिवादी क्र. न . संदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१ येथे झोपडीवर नावात बदल करणेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र ०२ केले आहे. प्रकरणी दि. २७.०२.२०२४ रोजी मा. अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीर प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पढील सनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसीदारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२४ रोजी सकाळी 9 १९.३० वाजता निश्चित केली आहे. आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सचित करण्यात येते की, आपण नियोजित सनावर्ण दि. ०६.०३.२०२४ रोजी सकाळी ११.३० वाजता मा. अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित / हजर राहुन, आपली बाजू मांडावी. उपरोत्त नमूद केलेल्यां दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

अव्वल कारकन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई शहर

#### जाहीर सूचना

येथे सचना देण्यात येत आहे की. माझे अशील श्री. मोहित चढा व श्रीमती ईशिता शर्मा यांना फ्लॅट क्र.१३, क्षेत्रफळ ६९५ चौ.फु. बिल्टअप क्षेत्र, १ला मजला, ए विंग, गंगा भवन को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड म्हणून ज्ञात सोसायटी, प्लॉट सीटीएस क्र. १०५३-१०५२/१-२२, जय प्रकाश रोड, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००६१ (यापुढे सदर फ्लॅट म्हणून संदर्भ) ही जागा श्री. अनुज कुमार शर्मा यांच्याकडून खरेदी करण्याची

सदर फ्लॅट मुळत: श्रीमती कमला बक्षी यांना दिनांक २२.०५.१९८१ रोजीच्या वाटपपत्रानुसार देण्यात आले होते. श्रीमती कमला बक्षी यांनी सदर फ्लॅट श्री. वालीमोहम्मद अब्दुल रेहमान चुनावाला यांच्याकडे टिनांक ०५ १० १९९४ गोजीच्य करारनामानुसार विक्री केले, सदर करारनामा नोंव केलेला नाही.

श्री. वालीमोहम्मद अब्दुल रेहमान चुनावाला यांचे २४.०५.१९९७ रोजी निधन झाले, त्यांनी त्यांचा मुलगा श्री. मोहम्मद झुबेर व्ही.ए. चुनावाला यांच्या नावे नामांकन केले होते परंत् वारसाप्रमाणपत्राकरिता अर्ज केलेला नव्हता आणि कोणत्याही यथोचीत न्यायालयाकडून वारसाप्रमाणपः दिलेले नव्हते. गंगा भवन को-ऑपरेटिव्ह हौसंग सोसायटी लिमिटेड यांनी दिनांक २१.०९.१९९७ रोजी भागप्रमाणपत्रावर त्यांचे नाव नमुद केले.

श्री. मोहम्मद झुबेर व्ही.ए. चुनावाला यांनी सदर फ्लॅट श्री. अनुज कुमार शर्मा यांच्याकडे दिनांक १४.०७.२००४ रोजीच्या करारनामाद्वारे विक्री केले. जर कोणा व्यक्तीस श्री. अनज कमार शर्मा यांच्य व्यतिरिक्त सदर फ्लॅट किंवा भागांबाबत दावा किंव अधिकार असल्यास त्यांनी त्यांचा दावा योग्र दस्तावेजी पुराव्यांसह लेखी स्वरुपात सदर सूचन प्रकाशन तारखेपासून **७ दिवसांत** खालील स्वाक्षरीकर्त्यांकडे कळवावेत. अन्यथा अशा व्यक्तींचे दावा त्याग किंवा स्थिगत केले आहेत. असे समजले जाईल आणि आमच्या अशिलांवर बंधनकारक

सही/ असोशिएट डी ज्युरिसकरिता मालक ॲड. मुक्ता सोहोनी श्री. मोहित चढा व श्रीमती ईशिता शर्मा यांचे वकील उच्च न्यायालय व नोटरी पत्ताः कार्यालय क्र.२०८. चावल कॉम्प्लेक्स. सेक्टर १५. सीबीडी बेलापर नवी मुंबई-४००६१४ दिनांक: 0२.0३.२0२१

#### **UDAY BUILDING** CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD. (Regn No.MUM/WM/HSG/

(TC)/11231/2020-21/ Year 21 Plot No.1, C.T.S. No.221, 221/1 to 4, Patwardhan Colony, Govandi Station Road, Govandi (East), Mumbai – 400088.

PUBLIC NOTICE MR. VASANT VIRJI KOTAK, owner of 50% Share in Flat No. 4 on the 1st Floor in 'A' Wing in the building

of the Society known as **UDAY BUILDING** Co-operative Housing Society Ltd., having address at Plot No.1, C.T.S. No. 221,221/1 to 4, Patwardhan Colony, Govandi Station Road, Govandi (East), Mumbai- 400088,

died on 24.11.2020 without making any nomination. His legal heir MR. SAMEER VASANT KOTAK has applied for membership of the society and 50% property right of the deceased member in the said Flat No. 4 and Share Certificate No.16 bearing distinctive numbers from

221 to 230 [both inclusive]. The society hereby invites claims objections from the heirs for transfer of said 50% share & interest of the eceased member in the property of the society within a period of 15 days from the publication of this notice with all necessary documents & proof. If no claim/objections are eceived within the period prescribed above, the society shall be free to deal in such manner as is provided under the Bye-Laws of the society A copy of the registered Bye-Laws of the society is available for inspection with the society office

For UDAY BUILDING Co-operative Housing Society Ltd. Sd/-Hon. Secretary

between 11 a.m. to 12 p.m. till the

expiry of notice period.

#### PUBLIC NOTICE

All the persons / peoples are informed through this Notice that my Client **Zubair Amir Khan** Residing at: 3B, 3rd Floor, Sayed Villa Premises CHS, Dr. (Mrs.) Leela Melville Road, Agripada, Mumbai- 400008 and Javed Amir Khan Residing at:- Flat No. B2, Shalimar Apartment, 2nd Floor, Meghraj Seth Marg, Baby Garden, Agripada, Mumbai-400008 have purchased the commercial shop premises i.e Plinth No. F-8 in Bldg.Plot No. Fat "Shree Rajlaxmi Textile Park" at village Pogaon, Tal- Bhiwandi, Dist-Thane admeasuring on or about 15000 Sq. fts from M/s Dura Home Builders & Developers Pvt. Ltd. vide registered sale deed dated; 29/06/2011at an agreed value mentioned in the deed. Thus a letter of possession was issued and handed over to my clients by the said M/s Dura Home Builders & Developers Pvt. Ltd.

My Clients have become the owners of the said shop premises i.e Plinth No. F-8 in Bidg.Plot No. F at "Shree Rajlaxmi Textile Park" at village Pogaon, Tal- Bhiwandi, Dist-Thane admeasuring on or about 15000 Sq and also my client have right, title and interest in the said shop premises i.e i Plinth No. F-8 in Bldg. Plot No. F at "Shree Railaxmi Textile Park" at village Pogaon, Tal-Bhiwandi, Dist-Thane admeasuring on or about 15000 Sq.. My clients hereby wishes to inform to the all the persons / peoples through this notice that shall not enter into any kind of sale transaction, sale deed, share agreement, tenancy agreement or otherwise any kind of agreement in respect of the said shop premises i.e Plinth No. F-8 in Bldg.Plot No. F at "Shree Rajlaxmi Textile Park" at village Pogaon, Tal-Bhiwandi, Dist-Thane admeasuring on or about 15000 Sq. Please note that my clients are not bound by the terms.

Adv. Suresh Barne rch, 2024

Office address at: I wing, 404, Shree Chamunda Garden, 90 feet Road, Opp. Balaji Residency, Thakurli (East), Dombivli- 421201. Date: 2nd March, 2024

#### **PUBLIC NOTICE**

Mr. Devishankar Shivram Mishra was the Co -Owner of the shop bearing No.8, admeasuring area 220 sg fit at Kasturin park society, Bhyander (East), Dist, Thane, Pin 401105, Maharashtra situated at C.T.S. no. o1, Village - Bhyander

Mr. Devishankar Shivram Mishra passed away on 21/7/2021. On his death 100% share of the deceased on said property devolved on his legal heirs i.e. (1) Mr. Shashikumar Devishankar Mishra (Son)(2) Mr. Dhanesh Kumar Devishankar Mishra (Son). All right, title and interest devolved on those legal heirs and necessary changes have been carried out in the society documents as well. Said legal heirs together were entitled to enjoy the said property to the exclusions of all to his a shall have complete right to deal with same at their will. Legal heirs No.1 & 2 above mentioned proceed to deal with the property at their will. Any person or person having any right, title, interest or claim on the said property or any par thereof by way of sales, exchange, mortgage, charge, lease, lien maintenance possession, gift, trust, easement or otherwise are hereby requested to inform us about the same in writing accompanied by authenticated copies of the documents in support of such claim within 14 days from the publication hereof to the undersigned at shop no.11/12 sukhangan building ,opp. S. T. Depot, Nallasopara (W) . Any claim received after the aforesaid period and/ or without authenticated copies of the documents in the support thereof shall not be taken into consideration and the claims if any, after the said period shall be deemed to have been given up or waived and the negotiations and documentation shall be completed, without any reference to such claims.

Date:02/03/2024

Napolean Tuscano Advocate High Court, Mumbai रिलायन्स ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-४०००६३.

# ReLi∧Nce

ताबा सूचना (पहा नियम ८(१))

(स्थावर मालमत्तेकरिता) ज्याअर्थी, रिलायन्स ॲसेट रिकन्स्टक्शन कंपनी लि. (आरएआरसी०८० (आरएचडीएफसी एचएल) टस्ट) यांनी दिनांव ऑफ सिक्यरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट. २००२ अंतर्गत <mark>रेलिगेअर हाऊसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्म कंपनी लिमिटेड</mark>चे प्राधिक जाफ तत्पुरात इरार- अरूर, रूपर, राजा रात्पार्य का अन्य अरूराचार कार्याचार कार्याचार वार्या रात्पार अर्थना राताच्छ आवकूर अधिकारी आहेत आणि सिन्धुरिटी इंटरिस्ट (एनफोर्सिम्ट) रूस्त, २००१ (अधिनियम) च्या नियम ३ सहबाचिता कस्त १३(२) अन्वये असलेल्या अधिकाराअंतर्गत त्यांनी दिनांक २६.०६.२०२१ रोजी मागणी सूचना वितरीत केली होती, त्य सूचनेनुसार सुरज सोनु आंबेकर, सोनु काशिराम आंबेकर यांचा मुलगा, र/िंड.: फ्लॅट क्र. १०१, दत्त कृपा वेल्फेअ सोसायटी, शिर्डी नगर ऑटो स्टॅण्डजवळ, नालासोपारा पुर्व, ठाणे, महाराष्ट्र–४०१२०९. दुसरा पत्ता: स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँक. डेप्युटेड बाय रनस्टॅण्ड इंडिया प्रा.लि., ९०, एम.जी. कोर्ड, मुंबई युनिव्हंसीटी समोर, मुंबई, महाराष्ट्र–४००००१. दुसरा पत्ताः गणेश भुवन, इमारत क्र.६५, खोली क्र.१९, १ला मजला, काकासाहेब गाडगील मार्ग, सैतान चौकी प्रभादेवी, मुंबई, महाराष्ट्र–४०००२५. सोनु काशिराम आंबेकर, काशिराम आंबेकर यांचा मुलगा, फ्लॅट क्र.१०१, दत्त कृपा वेल्फेअर सोसायटी, शिडीं नगर ऑटो स्टॅण्डजवळ, नालासोपारा पुर्व, ठाणे, महाराष्ट्र–४०१२०९. दुसरा पत्ताः उत्सव को–ऑपरेटिव्ह हो. सोसायटी, गाला नगर, आचोळे (टी) रोड, नालासोपाग (पुर्व), महाराष्ट्र–४१०२०९. दुसरा पत्ता: १/२०, एम.जी. क्र.६४, गणेश धुवन, गोखले रोड (पश्चिम), मुंबई. दुसरा पत्ता: गणेश धुवन, इमारत क्र.६५, खोली क्र.१९, १ला मजला, काकासाहेब गाडगील मार्ग, सैतान चौकी प्रभादेवी, मुंबई, महाराष्ट्र–४०००२५. आणि सुलोचना सोनु आंबेकर, सोनु काशिराम आंबेकर यांची पत्नी, फ्लॅट क्र. १०१, दत्त कुपा वेल्फेअर सोसायटी, शिर्डी नगर ऑटो स्टॅण्डजवळ, नालासोपारा पुर्व, ठाणे, महाराष्ट्र–४०१२०९. दुसरा पत्ताः १/२०, एम.जी. क्र.६४, गणेश भुवन, गोखले रोड (पश्चिम), मुंबई (कर्जदार) व (सह–कर्जदार) यांना सद्र सूचना प्राप्त तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत रक्कम 5. १०,७०,००५, ३७ (रुपये दहा लाख सत्तर हजार पाच आणि पैसे सदोतीस फक्त) ही रक्कम जमा करण्यास सांगण्या आले होते. कर्जदार/जामीनदार/तारणकर्ता हे वर नमृद् केलेली रक्कम भरण्यास असमर्थ ठरले असून कर्जदार/जामीनदार, तारणकर्ता व सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचित करण्यात येत आहे की, खालील स्वाक्षरीकत्यांनी सदर कायद्याच्या कला १३(४) सहवाचिता सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्सिट) रुत्स २००२ च्या नियम ८ अन्वये त्यांना प्राप्त असलेत्यः अधिकाराअतर्गत खाली नमूद केलेल्या मालमतेचा **ताबा** दिनांक २२ **फेब्रुवारी, २**०२४ रोजी घेतलेला आहे. विशेषतः कर्जदार/जामीनदार/तारणकर्ता आणि सर्वसामान्य जनतेस येथे सावध करण्यात येते की, सदर मालमतेसह कोणताही त्र्यवहार करू नये आणि सदर मालमत्तेसह व्यवहार केलेला असल्यास त्यांनी **रिलायन्स ॲसेट रिकन्स्टक्शन कंपनी लि** व्यवहार करू नये आणि सदर मालमनेसह व्यवहार केलेला असत्यास त्यानी रित्तायन्स असरेट रिकन्ट्रक्शन कपनी लि. यांच्याकडे रु.१०,७०,००४,३७ रिष्मये दहा लाख सत्तर हजार पांच आणि पैसे सदोतीस फक्त) आणि २४.०६.२०२१ पासून त्यावरील करारदाने पुढील व्याज व प्रासंगिक खर्च व शुल्क ही रक्कम जमा करावी. कर्जदार यांचे त्यत्न वेयत्या येत आई की, प्रतिभृत मालमत्ता सोडवून घेण्यासाठी उपलब्ध वेट्येस्दर्भात कायद्याच्या करूम १३(८) ची तरतूद आहे. ज अहंदरांनी विक्रीकरिता निश्चित तार्ख्यचून केणत्याहो वेटी आरएआरसीकड् संपूर्ण देय रक्कम तसेच त्यावरील शुल्क, खर्च इत्यादी जमा केल्यास प्रतीभृत मालमनेची आरएआरसीकड्न विक्री किंवा हस्तांतर केले जाणार नाही आणि प्रतीभृत मालमनेच्या विक्रीकरिता आरएआरसीकड्न कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन ल्टॅट क्र.४०५, ४था मजला, क्षेत्रफळ ४५५ चौ.फु. अर्थात ४२.२८ चौ.मी. (बिल्टअप क्षेत्र), पार्थ अपार्टमेंट म्हणू-ज्ञात इमारत, गाव विरार, तालुका वसई, जिल्हा पालघर, सल्हें क्र.३९९, हिस्सा क्र.५, नोंदणी उपजिल्हा वसई आणि जिल्हा व नोंदणी जिल्हा पालघर येथील मालमत्तेचे सर्व भाग व खंड.

तिकाण : महाराष्ट्र प्राधिकत अधिकार्र

रिलायन्स ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

#### माननीय मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालय, दिंडोशी, गरिगाव येथे वाणिज्यिक दावा क्र. १८५/२०२२

युनियन बँक ऑफ इंडिया र्बैकिंग कंपन्या (उपक्रमांचे संपादन आणि हस्तांतरण) कायदा, १९७० अन्वये स्थापित बॅंकिंग कंपनी **मुख्य कार्यालयः** २३९, विधानभवन मार्ग, मुंबई ४०० ०२१ आणि शाखा कार्यालयः २३९ विधान भवन मार्ग मुंबई - ४०० ०२१ आणि शाखा कार्यालयः दुकान क्र. बी-१, २, ३, स्प्रेंग टाईम सीएचएस लि., ३ रा गोळीबार रोड, सांताक्रुझ पूर्व, मुंबई ४०००५५, महाराष्ट्र द्वारे - श्री. मनोज हर्मा, शाखा व्यवस्थापक वय - ४० पेशाः नोकरी मोबाईल क्र. ८०८०७२४३१९ ... अर्जदार विरुद्ध मे. सर्फराज दूर्स ॲण्ड ट्रॅव्हल्स, प्रोप्रा. श्री. सर्फराज इस्माईल शेख वय - ३६ वर्षे, पेशाः व्यवसाय डी आर पटेल चाळ, गिलबर्ट हिल रोड, जुहू लेन, अंधेरी पश्चिम, मुंबई - ४०००५८, महाराष्ट्र मोबाईल क्र. ८८७९६९५६०१ ईमेल आयडीः माहित नाही

नोंद घ्यावी की, सदर न्यायालय हे उपरोल्लेखित अर्जदारांद्वारे खालील अनुतोषांकरिता सन्माननीर त्यायाधीश कोराम-सन्माननीय न्यायाधीश श्रीमती व्ही. डी. इंगळे, पीठासीन न्यायालय कक्ष क्र २ यांच्या समक्ष दि. १२.०६.२०२४ रोजी दु. ११.०९ वा. स्थानांतरित करण्यात येईल अर्जदाराने विनंती केली आहे की:

अ) प्रतिवादी यांना हकम आणि आदेश देण्यात यावा की. अर्जदारांना त्यांनी दि. ३०.११.२०१५ रोजीनुसारची रक्कम **रु. ६,३४,९१०.७४/- (रुपये सहा लाख चौतीस हजार नऊशे दहा व पैसे चौऱ्याहत्तर मात्र)** व त्यासह दि. ११.०१.२०२२ पासून मासिक शिलकीसह ११.४५% द.सा. दराने पुढील व्याज आणि दावा दाखल केल्याच्या दिनांकापासून निवाड्यापर्यंत सामान्य दर तत्त्वावर २% . दराने दंडात्मक व्याज आणि त्यानंतर निवाड्याच्या दिनांकापासून भरणा करेपर्यंत त्याच दराने पुढील व्याज एवढी रक्कम भरणा करावी, कारण दिवाणी कार्यवाही संकेत, १९०८ च्या संकेत ३४ बुसा प्रतिवादीस त्याच्या व्यावसायिक कारणास्तव अग्रीम देण्यात आली होती.

ब) सदर माननीय न्यायालयाने वेळ निश्चित करावी, ज्यादरम्यान प्रतिवादींना संयुक्तपणे आणि/िकंव न्वतंत्रपणे सदर देय रक्कम वरील विनंती (अ) च्या शर्तींमध्ये भरणा करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, भाणि असे न केल्यास, सदर माननीय न्यायालयाने अर्जदाराच्या उक्त मुदतीच्या जप्तीचे आदेश बनवावे आणि ती खाजगी करार आणि/किंवा सार्वजनिक लिलावाद्वारे विक्रीचे आदेश द्यावे आणि यामधून प्राप्त मोबदला वरील विनंती (अ)मध्ये प्रमाणित केलेली त्यांची देणी पूर्ण करण्याकरित अर्जदार बँकेकडे जमा करण्यात यावा.

क) अशा विक्री आणि वसुलीमध्ये जर कमतरता आढळल्यास प्रतिवादीविरुद्ध अशा कमतरतेच्य मर्यादेमध्ये वैयक्तिक हुकूम पारित करावी.

ड) प्रतिवादीस त्यांच्या वैयक्तिक नावे आणि/किंवा संयुक्तपणे आणि/किंवा स्वतंत्रपणे इतरांसोबत धारण केलेल्या त्यांच्या रोख आणि बँक शिल्लकीसह सर्व संबंधित स्थावर आणि जंगम मालमत्तांचे संपूर्ण तपशील दर्शविणाऱ्या प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरुपातील यादी बनविण्याचे आणि ती सदर माननीय यांयालयाकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात यावेत. ई) सदर माननीय न्यायालयाने प्रतिवादींनी वरील विनंत्यांच्या दृष्टीने प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात जम

. करावयाच्या त्यांच्या वैयक्तिक नावे आणि/किंवा संयुक्तपणे आणि/किंवा स्वतंत्रपणे इतरांसोबत धारण केलेल्या त्यांच्या रोख आणि बँक शिल्लक व त्यांनी धारण केलेले अन्य प्राप्य गोष्टींसह सर्व संबंधित स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश द्यावेत.

फ) प्रतिवादींना निर्देश देण्यात यावेत की, त्यांनी तक्रारदारांना त्यांच्या खटल्याचा खर्च प्रदान करावा ग) तसेच सदर खटल्याचे स्वरूप आणि परिस्थितीनुसार असे जे आवश्यक असतील असे अन् । पुढील अनुतोष देनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४

शिक्का

आनंदकमार आर. सिंग

दुकान क्र. १० सनशाईन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, नालासोपारा (प्), ता. वसई, जि. पालघर, महाराष्ट्र ४०१२०९. मोबा.-९६१९६०३३२०. anandsingh253@gmail.com

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated lanuary 15, 2024 (the "Letter of Offer' or "LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI').



#### **INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED**

ndian Infotech and Software Limited was incorporated on May 22, 1982 with the name of Indian Leasers Limited in accordance with the provision of Companies Act. 1956. Subsequently the name of our Company was changed to Indian Infotech and Software Limited and the Registrar of Companies; Mumbai issued a fresh certificate of incorporation on July 20, 1998. Pursuant to the order of the Honorable Bombay High Court dated May 4, 2012 approving the Scheme of Arrangement, the Nikkietal Co. Limited and Lambodar Nirmit Limited was merged with Indian Infotech and Software Limited. Pursuant to completion of said merger, the Company has ssued and allotted the equity shares to the shareholders of both the transferor companies, the securities of the company are listed on the BSE Ltd. (Stock Exchange) since April 19th. 1985.

Registered Office: Office No. 110, 1st Floor, Golden Chamber Pre Co-Op Soc Ltd. New Link Road Andheri West Mumbai-400053, India Contact Person: Manish Kumar Badola, Managing Director, Tel. No.: 022-49601435

E-mail: indianinfotechsoftware@yahoo.com; Website: www.indianinfotechandsoftwareltd.in Corporate Identification Number: L70100MH1982PLC027198

OUR PROMOTERS: MAHAMAYA FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED, JAYANTI PRIME SOFTWARE ADVISORY PRIVATE LIMITED, GENEROSITY SHARE TRADING PRIVATE LIMITED, DHANVARSHA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

RIGHT ISSUE OF UPTO 26.14.53.270 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1.00 EACH ("EQUITY SHARES" OR "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUF COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹1.60 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 0.60 PAISE PER RIGHTS EQUITY SHARE THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹4,183.25 LAKH ("THE ISSUE") ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF THIRTEEN (13) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY FIFTY (50) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS JANUARY 29, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 80 OF THIS LETTER OF OFFER.

#### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Tuesday, 6th February, 2024 and closed on Tuesday, 13th February, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Thursday, 8th February, 2024. Out of the total 15800 Applications for 357180036 Rights Equity Shares, 1829 Applications for 8169581 Rights Equity Shares were ejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer, The total numbers of valid applications were 13971 for 349010455 Rights Equity Shares, which was 120.26% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange on February 23, 2024, approved the allotment of 26,14,53,270 fully paid -up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the

ssue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for allotment.

1. The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:								
Category	Number of Equity Shares Allotted - against REs (including ASBA applications) received	Number of Equity Shares Allotted - Against valid additional shares	Total Equity Shares Allotted					
	Number	Number						
Eligible Equity Shareholders	71415408	124212787	195628195					
Renouncees	6701536	59123539	65825075					
Total	78116944	183336326	261453270					

2. Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):

Category	Gross			Less: Rejections/Partial Amount			Valid		
	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)
Eligible Equity Shareholders	13434	196184230	313894768.00	113	625080	1000128.00	13321	195559150	312894640.00
Fraction	20	69045	110472.00	0	0	0.00	20	69045	110472.00
Renouncees	633	153390760	245425216.00	3	8500	13600.00	630	153382260	245411616.00
Not a eligible equity shareholders of									
the company	1713	7536001	12057601.60	1713	7536001	12057601.60	0	0	0.00
Total	15800	357180036	571488057.60	1829	8169581	13071329.60	13971	349010455	558416728.00

Intimations for Allotment, Refund / Rejections Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed March 01, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on Februar 23, 2024. The listing application was executed with BSE on 27<sup>th</sup> February, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on February 29, 2024. No physical shares were allotted in the Rights issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about 04th March, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on 28h February 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI/" beginning on page 75 of the LOF. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 614 of the LOF.



REGISTRAR TO THE ISSUE Purva Sharegistry (India) Private Ltd. CIN: U67120MH1993PTC074079 Unit no. 9, Shiv Shakti Ind. Estt. J. R. Boricha Marg, Lower Parel (E) Mumbai 400 011. Telephone: +91 22 4961 4132; Facsimile: +91 22 22 3570 0224

Investor grievance e-mail: support@purvashare.com https://www.purvashare.com/ Contact Person: Ms. Deepali Dhuri: SEBI Registration No.: INRO00001112

**COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER** IISL

INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED Registered office: Office No. 110, 1st Floor, WINDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD. Golden Chamber Pre Co-Op Soc. Ltd. New Link NON BANKING FINANCE COMPANY Road Andheri West Mumbai-400053, India

Telephone: 022-49601435

E-mail: indianinfotechsoftware@yahoo.com Website: www.indianinfotechandsoftwareltd.in Contact Person: Mr. Mushahid Ahmed Khan. Company Secretary & Compliance Officer

Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All crievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving complete details such as name address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY. FOR INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED

Date: March 1, 2024 Place: Mumbai

करिता

दिंडोशी, मुंबई

निबंधक, शहर दिवाणी न्यायालय

Manish Badola Managing Director DIN: 05016172

The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, the Company at <u>www.indianinfotechandsoftwareltd.in</u> , the Registrar at <u>https://www.purvashare.com</u> and Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and or details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 18 of the LOF

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements (including their credit) and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation § under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.